



SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LTD.

A GOVT. RECOGNISED EXPORT HOUSE

CIN : L51909WB1940PLC010070

REGD. OFFICE : 2, RED CROSS PLACE, KOLKATA - 700 001, INDIA

TEL : (033) 2248-7406/07, FAX : (033) 2248-7045

E-mail : rssharma@somatextiles.com / investors@somatextiles.com

Website : www.somatextiles.com

2nd April, 2021

To,	To,
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
The Department of Corporate Service	The Department of Corporate Service
Phiroze Jeejeebhoy Towers	Exchange Plaza, C-1, Block G,
Dalal Street	Bandra Kurla Complex,
Mumbai- 400001	Bandra (East), Mumbai- 400 051
Script Code: 521034	NSE Symbol: SOMATEX

Sub: Newspaper Advertisement regarding Voluntary Delisting of Equity Shares from BSE Limited.

Dear Sir,


With reference to our intimations regarding Delisting of Equity Shares from BSE Limited in terms of Regulation 6 (a) and Regulation 7 of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 including amendments thereof, public announcement to this effect was published in following newspapers on 2nd April, 2021. Please find enclosed herewith the newspaper clippings for your records:

1. Financial Express (English- All editions)
2. Jansatta (Hindi- All editions)
3. Loksatta (Marathi- Mumbai)

Kindly acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For Soma Textiles & Industries Limited


(A. K. Mishra)
Company Secretary
Place: Kolkata



Encl: As above




Exports of foreign arms accounted for 33% of sales in FY20: RBI

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, April 1

EXPORTS OF FOREIGN subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales in 2019-20, according to the Reserve Bank of India (RBI). The RBI on Thursday released the provisional results of the 2019-20 round of the annual census on foreign liabilities and assets (FLA) covering cross-border liabilities and assets of the entities with inward/outward direct invest-

ment. These entities include companies, limited liability partnership (LLP), alternative investment fund (AIF) and partnership firms. "Out of the 30,753 reported entities in the latest census round, 27,801 had foreign direct investment (FDI) and/or overseas direct investment (ODI) in their balance sheet," it said. Of these entities, 22,881 had reported in the previous census round; 4,920 reported only in the current round and



2,128 entities, which reported in the previous round, did not report in the current round.

"Exports of foreign subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales, while imports had 34.8% share in their purchases during 2019-20," the RBI said. Exports constituted nearly three-fourths of the sales of foreign subsidiaries in the information and communication services. This sector accounted for nearly half of the total exports by foreign subsidiaries. It further said total FDI in India increased by 1.2% at

market value (in rupee terms) during 2019-20. The year-end market valuation of equity, especially that of the listed companies, was strongly influenced by the stock market crash in March 2020 at the onset of COVID-19 pandemic. FDI equity of unlisted companies witnessed a 15.9% growth during the same period, the RBI said. Total overseas direct investment recorded higher growth of 13.4% during 2019-20. The ratio of inward to outward

direct investment at market value stood at 4.7% in March 2020. "Manufacturing sector's share in total FDI equity capital stood at 45.5% at face value and 52.3% at market value," it said. The RBI said the census captures detailed information on market value of liabilities and assets of Indian DI companies arising on account of cross-border direct investment and other investments; and other business parameters.

Shriram Life to hit settlement ratio of over 95% in FY21

SHRIRAM LIFE INSURANCE on Thursday said its settlement ratio is expected to go beyond 95% in FY21 and the company has reduced the claims settlement time to 12 hours from 48 hours. Over the last few years, Shriram Life has been steadily improving its settlement ratio from 64% in FY2016-17 to 91.6% in FY2019-20 and is now set to go beyond 95% in FY2020-21. In order to reduce the mis-

ery in the pandemic times, Shriram Life Insurance is rapidly shifting its 48h settlement of non-early claims to 12 hours of document submission, it said in a release. Casparus Kromhout, MD & CEO, Shriram Life Insurance said, "Our team is focused on ensuring that timely help is extended on claim intimation and wherever possible, the claims are settled within a time period of 12 hours..."

Maha sugar mills seek subsidy to compete with mills in UP

FE BUREAU
Pune, April 1

SUGAR MILLERS FROM Maharashtra are planning to approach Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Nitin Gadkari to seek subsidy of ₹150 per quintal on domestic sale of sugar so that they are able to compete with mills from Uttar Pradesh.

The decision was taken at a meeting of sugar millers and stakeholders called by Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar to discuss issues related to the sugar sector. Millers are seeking subsidy claims against railway receipts on dispatches of sugar on the grounds that they are losing market share to Uttar Pradesh. Prakash Naiknavare, MD, National Federation of Cooperative Sugar Factories, said mills from Maharashtra have lost their traditional market share in the north and northeast to mills from Uttar Pradesh after the state overtook Maharashtra in sugar production. "Mills from Uttar Pradesh produce 'M' grade of sugar which commands a premium of ₹1.5 per kg, and since there is no grade-wise minimum support price (MSP), the 'M' grade is sold at the same price as 'S' Grade," he explained.

SEL Manufacturing Company Limited
(CIN: L51909PB2000PLC023679)
Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana 141 014
Ph: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Website: www.selindia.in

NOTICE
Pursuant to the provisions of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we may inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 08th day of April, 2021 at the Registered office of the Company at Ludhiana, to consider and approve among other things the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and half year period ended 30th September, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and nine months period ended 31st December, 2020 respectively. This information is also available on the website of the Company viz. www.selindia.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For SEL Manufacturing Company Ltd.,
Sd/-
RAHUL KAPOOR
COMPANY SECRETARY

Date : 31.03.2021
Place : Ludhiana

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
'Khanji Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028
CIN: L13100TG1958G0101674

CONTRACTS DEPARTMENT
Ref.: HO (Contracts)/Eo/CRS/2021/245 Dated: 01.04.2021
Expression of Interest (Eoi) for "Technical, controls and automation advancements of gyratory crushers and cone crushers".
NMDC invites Eoi applications from interested parties who can provide information / share details of such technological advancements of their crushers for assessing feasible upgrades in the existing crushers in minimum shutdown period as well as to consider in new crusher supplies. The Eoi document including Eligibility Criteria can be viewed and / or downloaded from NMDC's website http://www.nmdc.co.in (OR) Central Public Procurement (CPP) portal www.eprocure.gov.in from 02.04.2021 to 15.04.2021. The intending parties are required to visit the NMDC's website and / or CPP Portal for corrigendum, if any, at a future date. For further clarification, GM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on fax: 040-23538777, Phone: 040 2353 2800, email: contracts@nmdc.co.in General Manager (Contracts)

SOMA TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata- 700001, West Bengal
Tel: 033-22487406; Email ID: investors@somatextiles.com
Website: www.somatextiles.com

PUBLIC NOTICE FOR VOLUNTARY DELISTING PURSUANT TO REGULATION 6(a) AND 7 OF SEBI (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2009
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 6(a) and Regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time, the Board of the Directors of the Company at its meeting held on 30th March, 2021 has approved the proposal of Voluntary Delisting of the Company's Equity Shares from BSE Limited. The Company is in process of making application for Voluntary Delisting of its Equity Shares from BSE Limited.
NECESSITY AND OBJECT OF DELISTING:
There is negligible trading of Equity Shares on BSE Limited. However, the Company's shares are regularly being traded at National Stock Exchange of India Limited (NSE). Further, the object of Delisting from BSE Limited is to save the recurring expenditure on listing fees payable to BSE Limited where the trading of the Company's Equity Shares is negligible and to avoid unnecessary financial and administrative burden due to multiple compliances of the various regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 from time to time and to provide better services to the investors through the nationwide Stock Exchange terminal. Since the Company is listed on NSE having nationwide terminal, investors will have access to trade and deal in Company's shares across the country and it will not adversely affect the Investors. The Equity Shares of the Company will continue to be listed on The National Stock Exchange of India Limited.
For Soma Textiles and Industries Limited
Sd/-
(A. K. Mishra)
Company Secretary
Member No.: ACS 47060

Place : Kolkata
Date : 01.04.2021

HDFC ups FD rates by up to 25 bps

MORTGAGE LENDER HDFC has increased interest rates on its various fixed deposit products having different maturities by up to 25 basis points (bps) with effect from March 30. The increase in rates comes at a time when all the lenders have been reducing interest rates on their fixed deposits. For special fixed deposits up to ₹2 crore and maturing in 33 months, HDFC is offering an annual interest rate of 6.20%, according to the information available on its website. -PTI

MUTUAL FUNDS
Sahi Hai

uti
UTI Mutual Fund

Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Arbitrage Fund

Name of the Plan	Quantum of Dividend (Gross Distributable Amt.)*		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 31-03-21 (per unit)
	%	₹ per unit			
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Regular Plan	0.50	0.0500	Wednesday April 07, 2021	₹10.00	15.7097
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Direct Plan					16.9409

*Distribution of above dividend is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable).

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal distribution shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of income distribution cum capital withdrawal to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of income distribution cum capital withdrawal.

Mumbai
April 01, 2021 Toll Free No.: 1800 266 1230 Website: www.utmif.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, "Gri" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra [E], Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in. (CIN-U65991MH2002PLC137867).
For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified Mutual Fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.
UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Jana Small Finance Bank
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' on July 24, 2006 at Bengaluru, Karnataka as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("RoC"). Janalakshmi Financial Services Private Limited, was granted a certificate of registration dated March 4, 2008 by Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of non-banking financial institution without accepting public deposits, and was converted into an NBFC-MFI with effect from September 5, 2013. Subsequently, pursuant to a Board resolution dated June 1, 2015 and a Shareholders' resolution dated June 29, 2015, our Bank was converted into a public limited company under the Companies Act, 1956 with effect from August 10, 2015, and the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' to 'Janalakshmi Financial Services Limited', and a fresh certificate of incorporation of our Bank was issued by the RoC under such name. Janalakshmi Financial Services Limited, was granted a fresh certificate of registration as a non-banking financial institution without accepting public deposits dated September 18, 2015 pursuant to such name change. Our Bank, then known as Janalakshmi Financial Services Limited, was granted an in-principle approval by the RBI to convert into a small finance bank ("SFB") on October 7, 2015. Thereafter, our Bank received the final approval, dated April 28, 2017 from the RBI, to establish and carry on business as an SFB. Pursuant to resolutions passed by the Board and Shareholders on May 30, 2017 and January 12, 2018 respectively, the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Limited' to 'Jana Small Finance Bank Limited', and a fresh certificate of incorporation dated January 29, 2018 was issued by the RoC consequent upon the change of name. Our Bank commenced its business as an SFB with effect from March 28, 2018 and its name was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 16, 2019 issued by the RBI. For further details of changes in name and changes in the registered office of the Bank, see "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 31, 2021 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: The Fairway Business Park, #10/1, 11/2, 12/2B, off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL, Challenghatta, Bengaluru - 560 071, Karnataka, India; Tel: +91 80 4602 0100; Website: www.janabank.com; Contact Person: Lakshmi R. N. Komangalya and Compliance Officer: E-mail: investor.gnaveance@janabank.com; Corporate Identity Number: U6923KA2006PLC040028

OUR PROMOTERS: JANA CAPITAL LIMITED AND JANA HOLDINGS LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹7,000 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,253,859 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 1,748,975 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ALPHA TC HOLDINGS PTE LTD, UP TO 115,195 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BADRI NARAYAN PUNJIA, UP TO 126,482 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - POLICYHOLDER FUND, UP TO 54,207 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - SHAREHOLDER FUND, UP TO 542,064 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 878,878 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CLIENT ROSEHILL LIMITED, UP TO 984,455 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CVICGP II EMPLOYEE ROSEHILL LIMITED, UP TO 4,290 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ENAM SECURITIES PRIVATE LIMITED, UP TO 141,285 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND, UP TO 413 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II AJAY TANDON CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 998 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II SIVA SHANKAR CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 315,427 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY HERO ENTERPRISE PARTNER VENTURES, UP TO 553,820 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 829,485 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY ASIA PLATINUM PTE. LTD., UP TO 986,216 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ORG ENTERPRISES LIMITED, UP TO 1,652,101 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE. LTD., UP TO 119,410 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI AND UP TO 199,958 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI HUF (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹[●] OF THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRE-IP0 PLACEMENT OF AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹5,000 MILLION, INCLUDING BY WAY OF A PROPOSED FURTHER ISSUE TO OUR PROMOTERS FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION AND A FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARES FOR THE REMAINING AMOUNT (I.E. ₹5,000 MILLION LESS ANY AMOUNTS RAISED FROM THE PROPOSED FURTHER ISSUE, IF UNDERTAKEN) TO OUR PROMOTERS AND/OR OTHER INVESTORS. ANY PRE-IP0 PLACEMENT TO THE PROMOTERS (INCLUDING THROUGH THE PROPOSED FURTHER ISSUE), IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND ANY PRE-IP0 PLACEMENT TO INVESTORS OTHER THAN THE PROMOTERS, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. THE PRE-IP0 PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IP0 PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE-IP0 PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER SIZE CONSTITUTING AT LEAST [●] OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK. THE PRICE BAND SHALL BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE MINIMUM BID LOT AND EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) SHALL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITION OF [●], A KANNADA DAILY NEWSPAPER (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI/ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Portion"), provided that our Bank and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBs) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 365 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 31, 2021. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbicapms.com, respectively. Our Bank invites the public to give their comments on the DRHP, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Bank and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Bank and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein before in relation to the Issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 23 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Disclaimer clause of the RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

For details of the share capital and capital structure of the Bank, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 70 of the DRHP. For details of the main objects of the Bank as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: jana.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Simran Gadh / Sagar Jatkiya SEBI Registration Number: INM000012029	ICICI Securities Limited* ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2480 E-mail: jana.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Vaibhav Saboo/ Nidhi Wangnoo SEBI Registration Number: INM000011179	SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 8300 E-mail: jana.ipo@sbicapms.com Website: www.sbicapms.com Investor Grievance ID: investor.relations@sbicapms.com Contact Person: Aditya Deshpande SEBI Registration Number: INM000003531	KFin Technologies Private Limited* Selenium, Tower B, Plot No. - 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy 500 032- Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: jana.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor grievance ID: einward.rs@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221 *Formerly known as Kavya Fintech Private Limited

*In compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Banker Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, ICICI Securities Limited will be involved only in marketing of the Offer. ICICI Securities has signed the due diligence certificate and has been disclosed as BRLM for the Offer.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place: Bengaluru
Date: April 1, 2021

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on March 31, 2021. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbicapms.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" that will be included in the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

For JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Exports of foreign arms accounted for 33% of sales in FY20: RBI

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, April 1

EXPORTS OF FOREIGN subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales in 2019-20, according to the Reserve Bank of India (RBI).

The RBI on Thursday released the provisional results of the 2019-20 round of the annual census on foreign liabilities and assets (FLA) covering cross-border liabilities and assets of the entities with inward/outward direct invest-

ment. These entities include companies, limited liability partnership (LLP), alternative investment fund (AIF) and partnership firms.

"Out of the 30,753 reported entities in the latest census round, 27,801 had foreign direct investment (FDI) and/or overseas direct investment (ODI) in their balance sheet," it said.

Of these entities, 22,881 had reported in the previous census round; 4,920 reported only in the current round and



2,128 entities, which reported in the previous round, did not report in the current round.

"Exports of foreign subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales, while imports had 34.8% share in their purchases during 2019-20," the RBI said.

Exports constituted nearly three-fourths of the sales of foreign subsidiaries in the information and communication services. This sector accounted for nearly half of the total exports by foreign subsidiaries.

It further said total FDI in India increased by 1.2% at

market value (in rupee terms) during 2019-20. The year-end market valuation of equity, especially that of the listed companies, was strongly influenced by the stock market crash in March 2020 at the onset of COVID-19 pandemic.

FDI equity of unlisted companies witnessed a 15.9% growth during the same period, the RBI said.

Total overseas direct investment recorded higher growth of 13.4% during 2019-20. The ratio of inward to outward

direct investment at market value stood at 4.7% in March 2020.

"Manufacturing sector's share in total FDI equity capital stood at 45.5% at face value and 52.3% at market value," it said.

The RBI said the census captures detailed information on market value of liabilities and assets of Indian DI companies arising on account of cross-border direct investment and other investments; and other business parameters.

Shriram Life to hit settlement ratio of over 95% in FY21

SHRIRAM LIFE INSURANCE on Thursday said its settlement ratio is expected to go beyond 95% in FY21 and the company has reduced the claims settlement time to 12 hours from 48 hours.

Over the last few years, Shriram Life has been steadily improving its settlement ratio from 64% in FY2016-17 to 91.6% in FY2019-20 and is now set to go beyond 95% in FY2020-21.

In order to reduce the mis-

ery in the pandemic times, Shriram Life Insurance is rapidly shifting its 48h settlement of non-early claims to 12 hours of document submission, it said in a release.

Casparus Kromhout, MD & CEO, Shriram Life Insurance said, "Our team is focused on ensuring that timely help is extended on claim intimation and wherever possible, the claims are settled within a time period of 12 hours..."

Maha sugar mills seek subsidy to compete with mills in UP

FE BUREAU
Pune, April 1

SUGAR MILLERS FROM Maharashtra are planning to approach Prime Minister Narendra Modi and Union minister Nitin Gadkari to seek subsidy of ₹150 per quintal on domestic sale of sugar so that they are able to compete with mills from Uttar Pradesh.

The decision was taken at a meeting of sugar millers and stakeholders called by Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar to discuss issues related to the sugar sector. Millers are seeking subsidy claims against railway receipts on dispatches of sugar on the grounds that they are losing market share to Uttar Pradesh.

Prakash Naiknavare, MD, National Federation of Cooperative Sugar Factories, said mills from Maharashtra have lost their traditional market share in the north and northeast to mills from Uttar Pradesh after the state overtook Maharashtra in sugar production. "Mills from Uttar Pradesh produce 'M' grade of sugar which commands a premium of ₹1.5 per kg, and since there is no grade-wise minimum support price (MSP), the 'M' grade is sold at the same price as 'S' Grade," he explained.

SEL Manufacturing Company Limited
(CIN: L51909PB2000PLC023679)
Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana 141 014
Ph.: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Website: www.selindia.in

NOTICE

Pursuant to the provisions of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we may inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 08th day of April, 2021 at the Registered office of the Company at Ludhiana, to consider and approve among other things the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and half year period ended 30th September, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and nine months period ended 31st December, 2020 respectively.

This information is also available on the website of the Company viz. www.selindia.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For SEL Manufacturing Company Ltd.,
Sd/-
RAHUL KAPOOR
COMPANY SECRETARY

Date: 31.03.2021
Place: Ludhiana

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028
CIN: L13100TG1958G0101674

CONTRACTS DEPARTMENT

Ref.: HO (Contracts)/EoI/CRS/2021/245 Dated: 01.04.2021

Expression of Interest (EoI) for "Technical, controls and automation advancements of gyratory crushers and cone crushers".

NMDC invites EoI applications from interested parties who can provide information / share details of such technological advancements of their crushers for assessing feasible upgrades in the existing crushers in minimum shutdown period as well as to consider in new crusher suppliers.

The EoI document including Eligibility Criteria can be viewed and / or downloaded from NMDC's website <http://www.nmdc.co.in> (OR) Central Public Procurement (CPP) portal www.eprocure.gov.in from 02.04.2021 to 15.04.2021. The intending parties are required to visit the NMDC's website and / or CPP Portal for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarification, GM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on fax: 040-23536777, Phone: 040 2353 2800, email: contracts@nmdc.co.in

General Manager (Contracts)

SOMA TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070

Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata- 700001, West Bengal
Tel: 033-22487406; Email ID: investors@somatextiles.com
Website: www.somatextiles.com

PUBLIC NOTICE FOR VOLUNTARY DELISTING PURSUANT TO REGULATION 6(a) AND 7 OF SEBI (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2009

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 6(a) and Regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time, the Board of the Directors of the Company at its meeting held on 30th March, 2021 has approved the proposal of Voluntary Delisting of the Company's Equity Shares from BSE Limited. The Company is in process of making application for Voluntary Delisting of its Equity Shares from BSE Limited.

NECESSITY AND OBJECT OF DELISTING:
There is negligible trading of Equity Shares on BSE Limited. However, the Company's shares are regularly being traded at National Stock Exchange of India Limited (NSE). Further, the object of Delisting from BSE Limited is to save the recurring expenditure on listing fees payable to BSE Limited where the trading of the Company's Equity Shares is negligible and to avoid unnecessary financial and administrative burden due to multiple compliances of the various regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 from time to time and to provide better services to the investors through the nationwide Stock Exchange terminal. Since the Company is listed on NSE having nationwide terminal, investors will have access to trade and deal in Company's shares across the country and it will not adversely affect the investors.

The Equity Shares of the Company will continue to be listed on The National Stock Exchange of India Limited.

For Soma Textiles and Industries Limited
Sd/-
(A. K. Mishra)
Company Secretary
Member No.: ACS 47060

Place: Kolkata
Date: 01.04.2021

HDFC ups FD rates by up to 25 bps

MORTGAGE LENDER HDFC has increased interest rates on its various fixed deposit products having different maturities by up to 25 basis points (bps) with effect from March 30. The increase in rates comes at a time when all the lenders have been reducing interest rates on their fixed deposits. For special fixed deposits up to ₹2 crore and maturing in 33 months, HDFC is offering an annual interest rate of 6.20%, according to the information available on its website. -PTI

MUTUAL FUNDS
Sahi Hai

uti
UTI Mutual Fund

Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Arbitrage Fund

Name of the Plan	Quantum of Dividend (Gross Distributable Amt.)*		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 31-03-21 (per unit)
	%	₹ per unit			
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Regular Plan	0.50	0.0500	Wednesday, April 07, 2021	₹10.00	15.7097
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Direct Plan					16.9409

*Distribution of above dividend is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable).

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal distribution shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of income distribution cum capital withdrawal to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of income distribution cum capital withdrawal.

Mumbai
April 01, 2021 Toll Free No.: 1800 266 1230 Website: www.utm.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, "Gn" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund). E-mail: invest@uti.co.in [CIN: U65991MH2002PLC137867]. For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI NISM certified Mutual Fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Jana Small Finance Bank
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' on July 24, 2006 at Bengaluru, Karnataka as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("RoC"). Janalakshmi Financial Services Private Limited, was granted a certificate of registration dated March 4, 2008 by Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of non-banking financial institution without accepting public deposits, and was converted into an NBFC-MFI with effect from September 5, 2013. Subsequently, pursuant to a Board resolution dated June 1, 2015 and a Shareholders' resolution dated June 29, 2015, our Bank was converted into a public limited company under the Companies Act, 1956 with effect from August 10, 2015, and the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' to 'Janalakshmi Financial Services Limited', and a fresh certificate of incorporation of our Bank was issued by the RoC under such name. Janalakshmi Financial Services Limited, was granted a fresh certificate of registration as a non-banking financial institution without accepting public deposits dated September 18, 2015 pursuant to such name change. Our Bank, then known as Janalakshmi Financial Services Limited, was granted an in-principle approval by the RBI to convert into a small finance bank ("SFB") on October 7, 2015. Thereafter, our Bank received the final approval, dated April 28, 2017 from the RBI, to establish and carry on business as an SFB. Pursuant to resolutions passed by the Board and Shareholders on May 30, 2017 and January 12, 2018 respectively, the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Limited' to 'Jana Small Finance Bank Limited', and a fresh certificate of incorporation dated January 29, 2018 was issued by the RoC consequent upon the change of name. Our Bank commenced its business as an SFB with effect from March 28, 2018 and its name was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 16, 2019 issued by the RBI. For further details of changes in name and changes in the registered office of the Bank, see "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 31, 2021 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: The Fairway Business Park, #101, 11/2, 12/2B, off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL, Challaghatta, Bengaluru - 560 071, Karnataka, India; Tel: +91 80 4602 0100; Website: www.janabank.com; Contact Person: Lakshmi R.N. Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investor.grievance@janabank.com; Corporate Identity Number: U65923KA2006PLC040028

OUR PROMOTERS: JANA CAPITAL LIMITED AND JANA HOLDINGS LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹7,000 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,253,659 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 1,748,975 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ALPHA TECH HOLDINGS PTE LTD, UP TO 115,195 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BADRI NARAYAN PUNJIA, UP TO 126,482 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - POLICYHOLDER FUND, UP TO 54,207 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - SHAREHOLDER FUND, UP TO 542,064 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 878,878 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CLIENT ROSEHILL LIMITED, UP TO 984,455 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CVICGP II EMPLOYEE ROSEHILL LIMITED, UP TO 4,290 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ENAM SECURITIES PRIVATE LIMITED, UP TO 141,285 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND, UP TO 413 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II AJAY TANDON CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 998 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II SIVA SHANKAR CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 315,427 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY HERO ENTERPRISE PARTNER VENTURES, UP TO 553,820 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 829,485 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY ASIA PLATINUM PTE. LTD., UP TO 986,216 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY QRG ENTERPRISES LIMITED, UP TO 1,652,101 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE. LTD., UP TO 119,410 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI AND UP TO 199,958 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI HUF (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹[●] OF THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹5,000 MILLION, INCLUDING BY WAY OF A PROPOSED FURTHER ISSUE TO OUR PROMOTERS FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION AND A FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARES FOR THE REMAINING AMOUNT (I.E. ₹5,000 MILLION LESS ANY AMOUNTS RAISED FROM THE PROPOSED FURTHER ISSUE, IF UNDERTAKEN) TO OUR PROMOTERS AND/OR OTHER INVESTORS. ANY PRE-IPO PLACEMENT TO THE PROMOTERS (INCLUDING THROUGH THE PROPOSED FURTHER ISSUE), IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND ANY PRE-IPO PLACEMENT TO INVESTORS OTHER THAN THE PROMOTERS, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE RO. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER SIZE CONSTITUTING AT LEAST [●] OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK. THE PRICE BAND SHALL BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE MINIMUM BID LOT AND EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) SHALL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITION OF [●], A KANNADA DAILY NEWSPAPER (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI/ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Portion"), provided that our Bank and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBs) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 365 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 31, 2021. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, and www.sbicap.com, respectively. Our Bank invites the public to give their comments on the DRHP, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Bank and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Bank and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 23 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Disclaimer clause of the RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

For details of the share capital and capital structure of the Bank, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 70 of the DRHP. For details of the main objects of the Bank as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: jana.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Simran Gadh / Sagor Jatakya SEBI Registration Number: INM000012029	ICICI Securities Limited* ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: jana.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customer.care@icicisecurities.com Contact Person: Vaibhav Saboo/ Nidhi Wangnoo SEBI Registration Number: INM000011179	SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 8300 E-mail: jana.ipo@sbicap.com Website: www.sbicap.com Investor Grievance ID: investor.relations@sbicap.com Contact Person: Aditya Deshpande SEBI Registration Number: INM000003531	KFIN Technologies Private Limited* Selenium, Tower B, Plot No. - 31 and 32 Financial District, Nanaknagar, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy 500 032- Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: jana.ipo@kfin.tech Website: www.kfin.tech Investor grievance ID: inward.ris@kfin.tech Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221 *Formerly known as Kavya Fintech Private Limited

*In compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Banker Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, ICICI Securities Limited will be involved only in marketing of the Offer. ICICI Securities has signed the due diligence certificate and has been disclosed as BRLM for the Offer.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Bengaluru
Date: April 1, 2021

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on March 31, 2021. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbicap.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" that will be included in the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered or sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

Exports of foreign arms accounted for 33% of sales in FY20: RBI

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, April 1

EXPORTS OF FOREIGN subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales in 2019-20, according to the Reserve Bank of India (RBI).

The RBI on Thursday released the provisional results of the 2019-20 round of the annual census on foreign liabilities and assets (FLA) covering cross-border liabilities and assets of the entities with inward/outward direct invest-

ment. These entities include companies, limited liability partnership (LLP), alternative investment fund (AIF) and partnership firms.

"Out of the 30,753 reported entities in the latest census round, 27,801 had foreign direct investment (FDI) and/or overseas direct investment (ODI) in their balance sheet," it said.

Of these entities, 22,881 had reported in the previous census round; 4,920 reported only in the current round and



2,128 entities, which reported in the previous round, did not report in the current round.

"Exports of foreign subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales, while imports had 34.8% share in their purchases during 2019-20," the RBI said.

Exports constituted nearly three-fourths of the sales of foreign subsidiaries in the information and communication services. This sector accounted for nearly half of the total exports by foreign subsidiaries.

It further said total FDI in India increased by 1.2% at

market value (in rupee terms) during 2019-20. The year-end market valuation of equity, especially that of the listed companies, was strongly influenced by the stock market crash in March 2020 at the onset of COVID-19 pandemic.

FDI equity of unlisted companies witnessed a 15.9% growth during the same period, the RBI said.

Total overseas direct investment recorded higher growth of 13.4% during 2019-20. The ratio of inward to outward

direct investment at market value stood at 4.7% in March 2020.

"Manufacturing sector's share in total FDI equity capital stood at 45.5% at face value and 52.3% at market value," it said.

The RBI said the census captures detailed information on market value of liabilities and assets of Indian DI companies arising on account of cross-border direct investment and other investments; and other business parameters.

Shriram Life to hit settlement ratio of over 95% in FY21

SHRIRAM LIFE INSURANCE on Thursday said its settlement ratio is expected to go beyond 95% in FY21 and the company has reduced the claims settlement time to 12 hours from 48 hours.

Over the last few years, Shriram Life has been steadily improving its settlement ratio from 64% in FY2016-17 to 91.6% in FY2019-20 and is now set to go beyond 95% in FY2020-21.

In order to reduce the mis-

ery in the pandemic times, Shriram Life Insurance is rapidly shifting its 48h settlement of non-early claims to 12 hours of document submission, it said in a release.

Casparus Kromhout, MD & CEO, Shriram Life Insurance said, "Our team is focused on ensuring that timely help is extended on claim intimation and wherever possible, the claims are settled within a time period of 12 hours..."

Maha sugar mills seek subsidy to compete with mills in UP

FE BUREAU
Pune, April 1

SUGAR MILLERS FROM Maharashtra are planning to approach Prime Minister Narendra Modi and Union Minister Nitin Gadkari to seek subsidy of ₹150 per quintal on domestic sale of sugar so that they are able to compete with mills from Uttar Pradesh.

The decision was taken at a meeting of sugar millers and stakeholders called by Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar to discuss issues related to the sugar sector. Millers are seeking subsidy claims against railway receipts on dispatches of sugar on the grounds that they are losing market share to Uttar Pradesh.

Prakash Naiknavare, MD, National Federation of Cooperative Sugar Factories, said mills from Maharashtra have lost their traditional market share in the north and northeast to mills from Uttar Pradesh after the state overtook Maharashtra in sugar production. "Mills from Uttar Pradesh produce 'M' grade of sugar which commands a premium of ₹1.5 per kg, and since there is no grade-wise minimum support price (MSP), the 'M' grade is sold at the same price as 'S' Grade," he explained.

SEL Manufacturing Company Limited
(CIN: L51909PB2000PLC023679)
Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana 141 014
Ph: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Website: www.selindia.in

NOTICE

Pursuant to the provisions of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we may inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 08th day of April, 2021 at the Registered office of the Company at Ludhiana, to consider and approve among other things the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and half year period ended 30th September, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and nine months period ended 31st December, 2020 respectively.

This information is also available on the website of the Company viz. www.selindia.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For SEL Manufacturing Company Ltd.,
Sd/-
RAHUL KAPOOR
COMPANY SECRETARY

Date : 31.03.2021
Place : Ludhiana

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
'Khanji Bhavan', 10-3-3311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028
CIN: L13100TG1958G0101674

CONTRACTS DEPARTMENT

Ref.: HO (Contracts)/EoI/CRS/2021/245 Dated: 01.04.2021

Expression of Interest (EoI) for "Technical, controls and automation advancements of gyratory crushers and cone crushers".

NMDC invites EoI applications from interested parties who can provide information / share details of such technological advancements of their crushers for assessing feasible upgrades in the existing crushers in minimum shutdown period as well as to consider in new crusher supplies.

The EoI document including Eligibility Criteria can be viewed and / or downloaded from NMDC's website http://www.nmdc.co.in (WR) Central Public Procurement (CPP) portal www.eprocure.gov.in from 02.04.2021 to 15.04.2021. The intending parties are required to visit the NMDC's website and / or CPP Portal for corrigendum, if any, at a future date.

For further clarification, GM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on fax: 040-23538777, Phone: 040 2353 2800, email: contracts@nmdc.co.in General Manager (Contracts)

SOMA TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata- 700001, West Bengal
Tel: 033-22487406; Email ID: investors@somatextiles.com
Website: www.somatextiles.com

PUBLIC NOTICE FOR VOLUNTARY DELISTING PURSUANT TO REGULATION 6(a) AND 7 OF SEBI (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2009

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 6(a) and Regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time, the Board of the Directors of the Company at its meeting held on 30th March, 2021 has approved the proposal of Voluntary Delisting of the Company's Equity Shares from BSE Limited. The Company is in process of making application for Voluntary Delisting of its Equity Shares from BSE Limited.

NECESSITY AND OBJECT OF DELISTING:
There is negligible trading of Equity Shares on BSE Limited. However, the Company's shares are regularly being traded at National Stock Exchange of India Limited (NSE). Further, the object of Delisting from BSE Limited is to save the recurring expenditure on listing fees payable to BSE Limited where the trading of the Company's Equity Shares is negligible and to avoid unnecessary financial and administrative burden due to multiple compliances of the various regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 from time to time and to provide better services to the investors through the nationwide Stock Exchange terminal. Since the Company is listed on NSE having nationwide terminal, investors will have access to trade and deal in Company's shares across the country and it will not adversely affect the investors. The Equity Shares of the Company will continue to be listed on The National Stock Exchange of India Limited.

For Soma Textiles and Industries Limited
Sd/-
(A. K. Mishra)
Company Secretary
Member No.: ACS 47060

Place : Kolkata
Date : 01.04.2021

HDFC ups FD rates by up to 25 bps

MORTGAGE LENDER HDFC has increased interest rates on its various fixed deposit products having different maturities by up to 25 basis points (bps) with effect from March 30. The increase in rates comes at a time when all the lenders have been reducing interest rates on their fixed deposits. For special fixed deposits up to ₹2 crore and maturing in 33 months, HDFC is offering an annual interest rate of 6.20%, according to the information available on its website. -PTI

MUTUALFUNDS
Sahi Hai

uti
UTI Mutual Fund

Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Arbitrage Fund

Name of the Plan	Quantum of Dividend (Gross Distributable Amt.)*		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 31-03-21 (per unit)
	%	₹ per unit			
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Regular Plan	0.50	0.0500	Wednesday April 07, 2021	₹10.00	15.7097
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Direct Plan					16.9409

*Distribution of above dividend is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable).

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal distribution shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of income distribution cum capital withdrawal to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of income distribution cum capital withdrawal.

Mumbai
April 01, 2021 Toll Free No.: 1800 266 1230 Website: www.utimf.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, "Gri" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra [E], Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in. (CIN-U65991MH2002PLC137867).

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified Mutual Fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Jana Small Finance Bank
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' on July 24, 2006 at Bengaluru, Karnataka as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("RoC"). Janalakshmi Financial Services Private Limited, was granted a certificate of registration dated March 4, 2008 by Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of non-banking financial institution without accepting public deposits, and was converted into an NBFC-MFI with effect from September 5, 2013. Subsequently, pursuant to a Board resolution dated June 1, 2015 and a Shareholders' resolution dated June 29, 2015, our Bank was converted into a public limited company under the Companies Act, 1956 with effect from August 10, 2015, and the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' to 'Janalakshmi Financial Services Limited', and a fresh certificate of incorporation of our Bank was issued by the RoC under such name. Janalakshmi Financial Services Limited, was granted a fresh certificate of registration as a non-banking financial institution without accepting public deposits dated September 18, 2015 pursuant to such name change. Our Bank, then known as Janalakshmi Financial Services Limited, was granted an in-principle approval by the RBI to convert into a small finance bank ("SFB") on October 7, 2015. Thereafter, our Bank received the final approval, dated April 28, 2017 from the RBI, to establish and carry on business as an SFB. Pursuant to resolutions passed by the Board and Shareholders on May 30, 2017 and January 12, 2018 respectively, the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Limited' to 'Jana Small Finance Bank Limited', and a fresh certificate of incorporation dated January 29, 2018 was issued by the RoC consequent upon the change of name. Our Bank commenced its business as an SFB with effect from March 28, 2018 and its name was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 16, 2019 issued by the RBI. For further details of changes in name and changes in the registered office of the Bank, see "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 31, 2021 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: The Fairway Business Park, #10/1, 11/2, 12/2B, off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL, Challenghatta, Bengaluru - 560 071, Karnataka, India; Tel: +91 80 4602 0100; Website: www.janabank.com; Contact Person: Lakshmi R. N. Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investor.grievance@janabank.com; Corporate Identity Number: U6923KA2006PLC040028

OUR PROMOTERS: JANA CAPITAL LIMITED AND JANA HOLDINGS LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹7,000 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,253,859 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 1,748,975 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ALPHA CT HOLDINGS PTE LTD, UP TO 115,195 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BADRI NARAYAN PUNJIA, UP TO 126,482 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - POLICYHOLDER FUND, UP TO 54,207 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - SHAREHOLDER FUND, UP TO 542,064 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 878,878 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CLIENT ROSEHILL LIMITED, UP TO 984,455 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CVICGP II EMPLOYEE ROSEHILL LIMITED, UP TO 4,290 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ENAM SECURITIES PRIVATE LIMITED, UP TO 141,285 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND, UP TO 413 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II SIVA SHANKAR CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 315,427 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY HERO ENTERPRISE PARTNER VENTURES, UP TO 553,820 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 829,485 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY ASIA PLATINUM PTE. LTD., UP TO 986,216 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY QRG ENTERPRISES LIMITED, UP TO 1,652,101 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE. LTD., UP TO 119,410 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI AND UP TO 199,958 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI HUF (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹[●] OF THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRE-IP0 PLACEMENT OF AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹5,000 MILLION, INCLUDING BY WAY OF A PROPOSED FURTHER ISSUE TO OUR PROMOTERS FOR THE AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION AND A FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARES FOR THE REMAINING AMOUNT (I.E. ₹5,000 MILLION LESS ANY AMOUNTS RAISED FROM THE PROPOSED FURTHER ISSUE, IF UNDERTAKEN) TO OUR PROMOTERS AND/OR OTHER INVESTORS. ANY PRE-IP0 PLACEMENT TO THE PROMOTERS (INCLUDING THROUGH THE PROPOSED FURTHER ISSUE), IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND ANY PRE-IP0 PLACEMENT TO INVESTORS OTHER THAN THE PROMOTERS, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. THE PRE-IP0 PLACEMENT, IF UNDERTAKEN WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. IF THE PRE-IP0 PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE-IP0 PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER SIZE CONSTITUTING AT LEAST [●] OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK. THE PRICE BAND SHALL BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE MINIMUM BID LOT AND EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) SHALL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITION OF [●], A KANNADA DAILY NEWSPAPER (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI/ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Portion"), provided that our Bank and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBS) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 365 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 31, 2021. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbicapms.com, respectively. Our Bank invites the public to give their comments on the DRHP, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Bank and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Bank and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein before in relation to the Issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 23 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Disclaimer clause of the RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

For details of the share capital and capital structure of the Bank, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 70 of the DRHP. For details of the main objects of the Bank as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: jana.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in	ICICI Securities Limited* ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2480 E-mail: jana.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Simran Gadh / Sagar Jatakiya SEBI Registration Number: INM000012029	SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 6300 E-mail: jana.ipo@sbicapms.com Website: www.sbicapms.com Investor Grievance ID: investor.relationships@sbicapms.com Contact Person: Aditya Deshpande SEBI Registration Number: INM000003531	KFin Technologies Private Limited* Selenium, Tower B, Plot No. - 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy 500 032- Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: jana.ipo@kfinfintech.com Website: www.kfinfintech.com Investor grievance ID: einward.ris@kfinfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221 *Formerly known as Kavya Fintech Private Limited

*In compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Banker Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI ICDR Regulations, ICICI Securities Limited will be involved only in marketing of the Offer. ICICI Securities has signed the due diligence certificate and has been disclosed as BRLM for the Offer.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place: Bengaluru
Date: April 1, 2021

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on March 31, 2021. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbicapms.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" that will be included in the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

For Jana Small Finance Bank Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Exports of foreign arms accounted for 33% of sales in FY20: RBI

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, April 1

EXPORTS OF FOREIGN subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales in 2019-20, according to the Reserve Bank of India (RBI). The RBI on Thursday released the provisional results of the 2019-20 round of the annual census on foreign liabilities and assets (FLA) covering cross-border liabilities and assets of the entities with inward/outward direct invest-

ment. These entities include companies, limited liability partnership (LLP), alternative investment fund (AIF) and partnership firms. "Out of the 30,753 reported entities in the latest census round, 27,801 had foreign direct investment (FDI) and/or overseas direct investment (ODI) in their balance sheet," it said. Of these entities, 22,881 had reported in the previous census round; 4,920 reported only in the current round and



2,128 entities, which reported in the previous round, did not report in the current round.

"Exports of foreign subsidiaries in India accounted for 32.6% of their total sales, while imports had 34.8% share in their purchases during 2019-20," the RBI said. Exports constituted nearly three-fourths of the sales of foreign subsidiaries in the information and communication services. This sector accounted for nearly half of the total exports by foreign subsidiaries. It further said total FDI in India increased by 1.2% at

market value (in rupee terms) during 2019-20. The year-end market valuation of equity, especially that of the listed companies, was strongly influenced by the stock market crash in March 2020 at the onset of COVID-19 pandemic. FDI equity of unlisted companies witnessed a 15.9% growth during the same period, the RBI said. Total overseas direct investment recorded higher growth of 13.4% during 2019-20. The ratio of inward to outward

direct investment at market value stood at 4.7% in March 2020. "Manufacturing sector's share in total FDI equity capital stood at 45.5% at face value and 52.3% at market value," it said. The RBI said the census captures detailed information on market value of liabilities and assets of Indian DI companies arising on account of cross-border direct investment and other investments; and other business parameters.

Shriram Life to hit settlement ratio of over 95% in FY21

SHIRAM LIFE INSURANCE on Thursday said its settlement ratio is expected to go beyond 95% in FY21 and the company has reduced the claims settlement time to 12 hours from 48 hours. Over the last few years, Shriram Life has been steadily improving its settlement ratio from 64% in FY2016-17 to 91.6% in FY2019-20 and is now set to go beyond 95% in FY2020-21. In order to reduce the mis-

ery in the pandemic times, Shriram Life Insurance is rapidly shifting its 48h settlement of non-early claims to 12 hours of document submission, it said in a release. Casparus Kromhout, MD & CEO, Shriram Life Insurance said, "Our team is focused on ensuring that timely help is extended on claim intimation and wherever possible, the claims are settled within a time period of 12 hours..."

Maha sugar mills seek subsidy to compete with mills in UP

FE BUREAU
Pune, April 1

SUGAR MILLERS FROM Maharashtra are planning to approach Prime Minister Narendra Modi and Union minister Nitin Gadkari to seek subsidy of ₹150 per quintal on domestic sale of sugar so that they are able to compete with mills from Uttar Pradesh.

The decision was taken at a meeting of sugar millers and stakeholders called by Maharashtra deputy chief minister Ajit Pawar to discuss issues related to the sugar sector. Millers are seeking subsidy claims against railway receipts on dispatches of sugar on the grounds that they are losing market share to Uttar Pradesh. Prakash Naiknavare, MD, National Federation of Cooperative Sugar Factories, said mills from Maharashtra have lost their traditional market share in the north and northeast to mills from Uttar Pradesh after the state overtook Maharashtra in sugar production. "Mills from Uttar Pradesh produce 'M' grade of sugar which commands a premium of ₹1.5 per kg, and since there is no grade-wise minimum support price (MSP), the 'M' grade is sold at the same price as 'S' Grade," he explained.

HDFC ups FD rates by up to 25 bps

MORTGAGE LENDER HDFC has increased interest rates on its various fixed deposit products having different maturities by up to 25 basis points (bps) with effect from March 30. The increase in rates comes at a time when all the lenders have been reducing interest rates on their fixed deposits. For special fixed deposits up to ₹2 crore and maturing in 33 months, HDFC is offering an annual interest rate of 6.20%, according to the information available on its website. -PTI

SEL Manufacturing Company Limited
(CIN: L51909PB2000PLC023679)
Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana 141 014
Ph.: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Website: www.selindia.in

NOTICE
Pursuant to the provisions of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we may inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 08th day of April, 2021 at the Registered office of the Company at Ludhiana, to consider and approve among other things the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and half year period ended 30th September, 2020 and the unaudited financial results for the quarter and nine months period ended 31st December, 2020 respectively. This information is also available on the website of the Company viz. www.selindia.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
For SEL Manufacturing Company Ltd.,
Sd/-
RAHUL KAPOOR
COMPANY SECRETARY

Date : 31.03.2021
Place : Ludhiana

NMDC Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028
CIN: L13100TG1958G00101674

CONTRACTS DEPARTMENT
Ref.: HO (Contracts)/Eo/CRS/2021/245 Dated: 01.04.2021
Expression of Interest (EoI) for "Technical, controls and automation advancements of gyratory crushers and cone crushers".
NMDC invites EoI applications from interested parties who can provide information / share details of such technological advancements of their crushers for assessing feasible upgrades in the existing crushers in minimum shutdown period as well as to consider in new crusher suppliers.
The EoI document including Eligibility Criteria can be viewed and / or downloaded from NMDC's website http://www.nmdc.co.in (OR) Central Public Procurement (CPP) portal www.eprocure.gov.in from 02.04.2021 to 15.04.2021. The intending parties are required to visit the NMDC's website and / or CPP Portal for corrigendum, if any, at a future date.
For further clarification, GM (Contracts), NMDC Ltd., Hyderabad can be contacted on fax: 040-23538777, Phone: 040 2353 2800, email: contracts@nmdc.co.in
General Manager (Contracts)

SOMA TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
CIN: L51909WB1940PLC010070
Registered Office: 2, Red Cross Place, Kolkata- 700001, West Bengal
Tel: 033-22487406; Email ID: investors@somatextiles.com
Website: www.somatextiles.com

PUBLIC NOTICE FOR VOLUNTARY DELISTING PURSUANT TO REGULATION 6(a) AND 7 OF SEBI (DELISTING OF EQUITY SHARES) REGULATIONS, 2009
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 6(a) and Regulation 7 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time, the Board of the Directors of the Company at its meeting held on 30th March, 2021 has approved the proposal of Voluntary Delisting of the Company's Equity Shares from BSE Limited. The Company is in process of making application for Voluntary Delisting of its Equity Shares from BSE Limited.
NECESSITY AND OBJECT OF DELISTING:
There is negligible trading of Equity Shares on BSE Limited. However, the Company's shares are regularly being traded at National Stock Exchange of India Limited (NSE). Further, the object of Delisting from BSE Limited is to save the recurring expenditure on listing fees payable to BSE Limited where the trading of the Company's Equity Shares is negligible and to avoid unnecessary financial and administrative burden due to multiple compliances of the various regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 from time to time and to provide better services to the investors through the nationwide Stock Exchange terminal. Since the Company is listed on NSE having nationwide terminal, investors will have access to trade and deal in Company's shares across the country and it will not adversely affect the investors. The Equity Shares of the Company will continue to be listed on The National Stock Exchange of India Limited.
For Soma Textiles and Industries Limited
Sd/-
(A. K. Mishra)
Company Secretary
Member No.: ACS 47060

Place : Kolkata
Date : 01.04.2021

MUTUALFUNDS
Sahi Hai

uti
UTI Mutual Fund

Haq, ek behtar zindagi ka.

Notice For Declaration Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal

UTI Arbitrage Fund

Name of the Plan	Quantum of Dividend (Gross Distributable Amt.)*		Record Date	Face Value (per unit)	NAV as on 31-03-21 (per unit)
	%	₹ per unit			
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Regular Plan	0.50	0.0500	Wednesday April 07, 2021	₹10.00	15.7097
UTI Arbitrage Fund - Income Distribution cum capital withdrawal Option - Direct Plan					16.9409

*Distribution of above dividend is subject to the availability of distributable surplus as on record date. Income distribution cum capital withdrawal payment to the investor will be lower to the extent of statutory levy (if applicable).

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the income distribution cum capital withdrawal options of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Such of the unitholders under the income distribution cum capital withdrawal option whose names appear in the register of unitholders as at the close of business hours on the record date fixed for each income distribution cum capital withdrawal distribution shall be entitled to receive the income distribution cum capital withdrawal so distributed. The reinvestment, if any, shall be treated as constructive payment of income distribution cum capital withdrawal to the unitholders as also constructive receipt of payment of the amount by the unitholders. No load will be charged on units allotted on reinvestment of income distribution cum capital withdrawal.

Mumbai
April 01, 2021
Toll Free No.: 1800 266 1230
Website: www.utimf.com

The time to invest now is through - UTI SIP

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, "Gn" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra [E], Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund). E-mail: invest@uti.co.in, [CIN-U65991MH2002PLC137867].
For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/ NISM certified Mutual Fund distributor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.
UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual Fund (UTI MF) and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Jana Small Finance Bank
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' on July 24, 2006 at Bengaluru, Karnataka as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("RoC"). Janalakshmi Financial Services Private Limited, was granted a certificate of registration dated March 4, 2008 by Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of non-banking financial institution without accepting public deposits, and was converted into an NBFC-MFI with effect from September 5, 2013. Subsequently, pursuant to a Board resolution dated June 1, 2015 and a Shareholders' resolution dated June 29, 2015, our Bank was converted into a public limited company under the Companies Act, 1956 with effect from August 10, 2015, and the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' to 'Janalakshmi Financial Services Limited', and a fresh certificate of incorporation of our Bank was issued by the RoC under such name. Janalakshmi Financial Services Limited, was granted a fresh certificate of registration as a non-banking financial institution without accepting public deposits dated September 18, 2015 pursuant to such name change. Our Bank, then known as Janalakshmi Financial Services Limited, was granted an in-principle approval by the RBI to convert into a small finance bank ("SFB") on October 7, 2015. Thereafter, our Bank received the final approval, dated April 28, 2017 from the RBI, to establish and carry on business as an SFB. Pursuant to resolutions passed by the Board and Shareholders on May 30, 2017 and January 12, 2018 respectively, the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Limited' to 'Jana Small Finance Bank Limited', and a fresh certificate of incorporation dated January 29, 2018 was issued by the RoC consequent upon the change of name. Our Bank commenced its business as an SFB with effect from March 28, 2018 and its name was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 16, 2019 issued by the RBI. For further details of changes in name and changes in the registered office of the Bank, see "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the Draft Red Herring Prospectus dated March 31, 2021 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: The Fairway Business Park, #10/1, 11/2, 12/2B, off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL, Challaghatta, Bengaluru - 560 071, Karnataka, India; Tel: +91 80 4602 0100; Website: www.janabank.com; Contact Person: Lakshmi R N, Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investor.gnevanee@janabank.com; Corporate Identity Number: U65923KA2006PLC040028

OUR PROMOTERS: JANA CAPITAL LIMITED AND JANA HOLDINGS LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹7,000 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,253,659 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 1,748,975 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ALPHAT CH HOLDINGS PTE LTD, UP TO 115,195 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BADRI NARAYAN PILINJA, UP TO 126,482 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - POLICYHOLDER FUND, UP TO 54,207 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED - SHAREHOLDER FUND, UP TO 542,064 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 878,878 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CLIENT ROSEHILL LIMITED, UP TO 984,455 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY CVCIGP II EMPLOYEE ROSEHILL LIMITED, UP TO 4,290 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ENAM SECURITIES PRIVATE LIMITED, UP TO 141,285 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND, UP TO 413 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II AJAY TANDON CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 998 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II SIVA SHANKAR CO-INVESTMENT TRUST, UP TO 315,427 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY HERO ENTERPRISE PARTNER VENTURES, UP TO 553,820 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED, UP TO 829,485 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY NORTH HAVEN PRIVATE EQUITY ASIA PLATINUM PTE. LTD., UP TO 986,216 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY QRG ENTERPRISES LIMITED, UP TO 1,652,101 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY TREE LINE ASIA MASTER FUND (SINGAPORE) PTE. LTD., UP TO 119,410 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI AND UP TO 199,958 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY VALLABH BHANSHALI HUF (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HERINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS, OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹[●] OF THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK.

OUR BANK MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹5,000 MILLION, INCLUDING BY WAY OF A PROPOSED FURTHER ISSUE TO OUR PROMOTERS FOR AN AMOUNT AGGREGATING UP TO ₹4,000 MILLION AND A FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARES FOR THE REMAINING AMOUNT (I.E. ₹5,000 MILLION LESS ANY AMOUNTS RAISED FROM THE PROPOSED FURTHER ISSUE, IF UNDERTAKEN) TO OUR PROMOTERS AND/OR OTHER INVESTORS. ANY PRE-IPO PLACEMENT TO THE PROMOTERS (INCLUDING THROUGH THE PROPOSED FURTHER ISSUE), IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND ANY PRE-IPO PLACEMENT TO INVESTORS OTHER THAN THE PROMOTERS, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN WILL BE COMPLETED PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE RO. IF THE PRE- IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE AMOUNT RAISED FROM THE PRE- IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO THE MINIMUM OFFER SIZE CONSTITUTING AT LEAST [●] OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR BANK. THE PRICE BAND SHALL BE DECIDED BY OUR BANK AND THE SELLING SHAREHOLDERS, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND THE MINIMUM BID LOT AND EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) SHALL BE DECIDED BY OUR BANK IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN [●] EDITIONS OF [●], AN ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITIONS OF [●], A HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER AND [●] EDITION OF [●], A KANNADA DAILY NEWSPAPER (KANNADA BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF KARNATAKA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED) EACH WITH WIDE CIRCULATION AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH SEBI/ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Bank and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 31 of the SEBI/ICDR Regulations and in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI/ICDR Regulations, wherein not less than 75% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") ("QIB Portion"), provided that our Bank and the Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI/ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, not more than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI/ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID (in case of RIBS) if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCBS or under the UPI Mechanism, as applicable. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 385 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI/ICDR Regulations to inform the public that the Bank is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 31, 2021. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI/ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of such filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of Stock Exchanges i.e. NSE and BSE at www.nseindia.com, www.bseindia.com, and the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com, www.sbicaps.com, respectively. Our Bank invites the public to give their comments on the DRHP, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Bank and the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by our Bank and/or the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Issue on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing of the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Bank and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of this Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 23 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

Disclaimer clause of the RBI: A license authorising the Bank to carry on small finance bank business has been obtained from the Reserve Bank of India in terms of section 22 of the Banking Regulation Act, 1949. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the Reserve Bank of India does not undertake any responsibility for the financial soundness of the Bank or for the correctness of any of the statements made or opinion expressed in this connection.

For details of the share capital and capital structure of the Bank, please see the section titled "Capital Structure" beginning on page 70 of the DRHP. For details of the main objects of the Bank as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 190 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS			REGISTRAR TO THE OFFER
Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025. Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: jana.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Simran Gadh / Sagar Jatakiya SEBI Registration Number: INM000012029	ICICI Securities Limited* ICICI Centre, H. T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai 400 020, Maharashtra, India Tel: +91 22 2288 2460 E-mail: jana.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com Contact Person: Vaibhav Saboo/ Nidhi Wangoo SEBI Registration Number: INM000011179	SBI Capital Markets Limited 202, Maker Tower 'E', Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 8300 E-mail: jana.ipo@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Investor Grievance ID: investorrelations@sbicaps.com Contact Person: Aditya Deshpande SEBI Registration Number: INM000003531	KFIN Technologies Private Limited* Selenium, Tower B, Plot No. - 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy 500 032- Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: jana.ipo@kfin.tech.com Website: www.kfin.tech.com Investor grievance ID: einward.ris@kfin.tech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221 *Formerly known as Kavya Fintech Private Limited

*In compliance with the proviso to Regulation 21A of the SEBI Merchant Banker Regulations and Regulation 23(3) of the SEBI/ICDR Regulations, ICICI Securities Limited will be involved only in marketing of the Offer. ICICI Securities has signed the due diligence certificate and has been disclosed as BRLM for the Offer.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Place: Bengaluru
Date: April 1, 2021

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on March 31, 2021. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbicaps.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" that will be included in the DRHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the Securities Act, "Rule 144A") in transactions exempt from, or not subject to, registration requirements of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and pursuant to the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

For JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Adfactors 884

राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू

जयपुर, 1 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण गुरुवार को शुरू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि राजस्थान ऐसी योजना लाने वाला देश का पहला राज्य है।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'राजस्थान सरकार की राज्य में सभी को नकदरहित उपचार उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण गुरुवार को शुरू हो गया। यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा राहत उपलब्ध करवाना है।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लोग पंजीकरण करवाएं और उपचार के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ उठाएं।'

श्रीनगर में भाजपा नेता के घर पर हमला, सुरक्षाकर्मी की मौत

श्रीनगर, 1 अप्रैल (भाषा)।

श्रीनगर के बाहरी इलाके में स्थानीय भाजपा नेता पर गुरुवार की सुबह लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने हमले की कोशिश की जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। चार में से एक आतंकवादी बुर्का पहनकर आया था और अरिगाम नौगाम स्थित भाजपा नेता अनवर अहमद से मिलने का अनुरोध किया था।

बारामूला जिले के भाजपा महासचिव एवं कुपवाड़ा जिले के प्रभारी अहमद घटना के समय मकान में मौजूद नहीं थे। जैसे ही संतरी ने दरवाजा खोला आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिससे संतरी की मौत हो गई। संतरी की पहचान रमीज रजा के तौर पर हुई है।

अधिकारी ने बताया कि अंदर मौजूद अन्य गाई द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने के डर से आतंकवादी भाजपा नेता के घर पर नहीं होने की सूचना मिलने पर भाग गए। हालांकि वे एसएलआर राइफल लूट ले गए। यह घटना उत्तरी कश्मीर स्थित बारामूला जिले के सोपोर में ब्लाक विचारस

हाई कोर्ट ने अमेरिकी महिला की सजा घटाकर 11 माह की

नैनीताल, 1 अप्रैल (भाषा)।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिना वैध दस्तावेजों के भारत आई अमेरिकी की एक महिला को चार साल के कारावास की सजा को घटाकर 11 माह कर दिया है।

अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरसी खुल्हे ने चार साल के सश्रम कारावास की सजा को गारसी माह में बदल दिया और अधिकारियों से कहा कि वे उसे अपने देश वापस जाने दें क्योंकि वह अपनी सजा पहले ही काट चुकी है।

निचली अदालत ने मलिक को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मलिक के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत ने उसके अपराध के हिसाब से उसे कहीं बड़ी सजा दी है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं और भारत में रहने के दौरान महिला द्वारा कोई अन्य अपराध नहीं किया गया है।

भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने भारत-नेपाल सीमा पर जांच के दौरान अमेरिकी महिला को बस में उस समय पकड़ा था, जब वह वैध वीजा के बिना यात्रा कर रही थी।

नीलामी सूचना

दिनांक 01.04.2021 को श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री स्त्रीराम निवासी वार्ड नं.-1, नगर पंचायत दोराला, जिला मेरठ की बचक भूमि कुल रकबई 2630 वर्ग मी. सम्बन्धित खसरा संख्या नं.-414 स्थित ग्राम भोवापुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद एवं बचक भूमि कुल रकबई 2640 वर्ग मी. सम्बन्धित खसरा संख्या नं.-415 स्थित ग्राम भोवापुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद को डिकी निष्पादन में 92(ख) के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2021 को कुर्क कर लिया गया है। जिसकी नीलामी दिनांक 05.04.2021 को नोएडा कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुख्यालय-501, पंचम तल, सुन्दरम बिल्डिंग, आर.डी.सी., गाजियाबाद में नियमानुसार की जायेगी। अतः सर्वराज्य को सूचित किया जाता है, कि जो भी व्यक्ति नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो उपरोक्त वर्गीत स्थान पर दिनांक 05.04.2021 को दोपहर 2 बजे नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो।

नोट: नीलामी के समय 50 हजार टोकन मनी तथा सफल बोलीदाता को कुल रकम का 1/4 भाग जमा करना होगा तथा सरकारी व्यय नकद जमा करना होगा।

हस्ताक्षर (रक्षण तालीर)	हस्ताक्षर (रक्षण तालीर)
स.वि.अ./विक्रय अधिकारी	अपर जिला सहकारी अधिकारी / प्रत्यायान
नोएडा कॉ. को-ऑपरेटिव बैंक लि.	अधिकारी
गाजियाबाद	नोएडा कॉ. को-ऑपरेटिव बैंक लि.
सहकारिता विभाग, गाजियाबाद	गाजियाबाद
	सहकारिता विभाग, गाजियाबाद

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
शाखा कार्यालय : 7 वीं मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, इन्डियाप्लान एक्सप्रेसवे, न्यू दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निवम 2002 के नियम 8(6) के तहत)

वित्तीय आस्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निवम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पॉटेंट प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अर्धीन अचल आस्थियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आगरा शाखा सं. 5033577 (सुधरी बजार)

निम्नलिखित श्रावणकां/वह-श्रावणकां को विक्रय रूप में तथा अनगण्य को सार्वजनिक रूप से पहावर सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूति लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, "जैसे है जहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के अन्तर्गत पर 24 अप्रैल, 2021 को विक्रय की जायेगी।

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

अचल सम्पत्ति का विज्ञापन हेतु विज्ञापन सूचना

पूर्व नौकरशाह मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल

श्रीनगर, 1 अप्रैल (भाषा)।

पूर्व नौकरशाह और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य सूचना आधुनिक मोहम्मद अशरफ मीर गुरुवार को यहां सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मीर पार्टी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता बशीर अहमद डार की मौजूदगी में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) में शामिल हुए।

विशेष रेलगाड़ियाँ

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियाँ नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार चलाई जाएंगी :-

02438/02437 हजरत निजामुद्दीन - सिकंदराबाद - हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट विशेष (साप्ताहिक)		स्टेशन	गाड़ी सं. 02437
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
—	15:35	हजरत निजामुद्दीन	10:30
13:35	—	सिकंदराबाद	—
—	—	सिकंदराबाद	12:50

चलने के दिन : 02438 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक रविवार को दिनांक 04.04.2021 अगले आदेश तक तथा 02437 सिकंदराबाद से प्रत्येक बुधवार को दिनांक 07.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : प्रथम क्लास/सुविधा, 2 टियर वाता. एवं 3 टियर वाता।

उद्धारव : झांसी, भोपाल जं., नागपुर, बहादुरशाह एवं काजीपेट जं., स्टेशन।

06787/06788 तिरुनेलवेलि जं.— श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा— तिरुनेलवेलि जं. विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक)		स्टेशन	गाड़ी सं. 06788
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
—	16:45	तिरुनेलवेलि जं.	19:00
10:35	—	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	—
—	—	कटड़ा	22:30

चलने के दिन : 06787 तिरुनेलवेलि जं. से प्रत्येक सोमवार को दिनांक 12.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06788 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से प्रत्येक गुरुवार को दिनांक 15.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : 2 टियर वाता, 3 टियर वाता, शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।

उद्धारव : बान्नी मणियाचिव जं., कोविडपट्टि, सातूर, विरुडुनगर जं., मुद्दूर जं., कोडैकानल रोड, दिडुकुल जं., तिरुच्चिरापल्लि जं., करूर जं., ईरोड जं., सेलम जं., जोलारोड जं., काटथाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेगिमुटा जं., नेल्लूर, ओगोल, तेनाली जं., विजयवाड़ा जं., खम्मम, वरंगल, रामगुडम, बल्हाराशाह, चंद्रपुर, सेवाग्राम, नागपुर, इटारसी जं., भोपाल जं., झांसी, ग्वासियर जं., धौलपुर जं., आगरा छावनी, फरीदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, शकूरबस्ती, बहादुरगढ़, रोहतक जं., जुलाना, जींद जं., बरसोला, उधना, नरवाना जं., टोहाना, जाखल जं., लेहसागा, सुनाम उधम सिंह वाला, रंगरूर, धूरी जं., मलेरकोटला, अहमदगढ़, लुधियाना जं., फगवाड़ा जं., जलंधर छावनी जं., मुकेशपुर, पतानकोट छावनी, कटुआ, जम्मू तवी एवं प्रथमपुर स्टेशन।

06167/06168 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल—हजरत निजामुद्दीन— तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक)		स्टेशन	गाड़ी सं. 06168
आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान
—	14:15	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	07:05
17:50	—	हजरत निजामुद्दीन	—
—	—	हजरत निजामुद्दीन	05:10

चलने के दिन : 06167 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से प्रत्येक मंगलवार को दिनांक 13.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06168 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 16.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : 2 टियर वाता, 3 टियर वाता, शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।

उद्धारव : कोल्लम जं., कायमकुलम जं., आलपुथा, एरणाकुलम जं., आलुवा, तृशूर, पल्लट, कोयंबतूर जं., तिरुपूर, इरोड जं., सेलम जं., काटथाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेगिमुटा जं., गूडूर जं., ओगोल, विजयवाड़ा जं., वरंगल, बल्हाराशाह, नागपुर, आमला जं., बैतूल, इटारसी जं., भोपाल जं., बीना जं., झांसी, ग्वासियर जं., आगरा छावनी एवं मथुरा जं., स्टेशन।

नोट: उपरोक्त विशेष रेलगाड़ियाँ पूर्णतः आरक्षित श्रेणी को डिब्बों से युक्त होंगी।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदद
हेल्पलाइन नं. 139
उत्तर रेलवे
आपकी सुविधा - हमारा ध्येय
पर हमें फॉलो करें

HCL TECHNOLOGIES LIMITED
Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110 019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India
Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Telephone: +91 11 26436336; Website: www.hcltech.com
Email Id: Investors@hcl.com

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given that the following equity share certificates issued by the Company are stated to have been lost and the Company is proceeding to issue the duplicate share certificates in lieu of the same:

Name of the Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	Face Value	No. of shares
Uma Datta		14669	250371627-250371728		100
Jt. Vice Admiral N P Datta	0014021	286720	325497619-325497818	Rs. 2/-	200
		291610	702867862-702868261		400
		400204	1428259061-1428259860		800

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent, along with sufficient proof, within 15 days of publication of this notice, after which no claim(s) shall be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificates. The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person dealing with the above share certificates shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent
Link Intime India Private Limited
(Unit: HCL Technologies Limited)
C-101, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083
E-mail: mt.helpdesk@linkintime.co.in
Date: April 1, 2021
Place: Noida (U.P.)

For HCL Technologies Limited
Manish Anand
Company Secretary

सोमा टेक्स्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L51909WB1940PLC010070
पंजीकृत कार्यालय: 2, रेड क्रॉस प्लेस, कोलकाता-700001, वेस्ट बंगाल
टेली: 033-22487406; ईमेल आईडी: investors@somatextiles.com
वेबसाइट: www.somatextiles.com

समा (इंक्वैट) शर्मा का अस्वीकारण निवमन, 2009 के विनियमन 6(ए) तथा 7 के अनुपालन में स्वीकृत अस्वीकारण के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंक्वैट) शर्मा का अस्वीकारण (विनियमन, 2009, समय-समय पर यथा-संशोधित के विनियमन 6(ए) तथा विनियमन 7 के अनुपालन में 30 मार्च, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने वीएसई लिमिटेड से कम्पनी की इन्वैटी शेयरों के स्वीकृत अस्वीकारण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह कम्पनी वीएसई लिमिटेड से अपनी इन्वैटी शेयरों के स्वीकृत अस्वीकारण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

अस्वीकारण की आवश्यकता तथा उद्देश्य:
वीएसई लिमिटेड पर इन्वैटी शेयरों का नाण्य ट्रेडिंग होता है। जबकि, कम्पनी की शेयरों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर निर्धारित रूप से व्यापार होता है। पुनः वीएसई लिमिटेड से अस्वीकारण का उद्देश्य वीएसई लिमिटेड को देय सूचीयन शुल्कों पर आवृत्ति लक्ष्य का वचन करना है जहां कम्पनी की इन्वैटी शेयरों का नाण्य व्यवसाय होता है तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अधिनियम, 2015 के विनियम विनियमनों के समय-समय पर विविध अनुपालनों के कारण आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक बोझ से बचाव तथा राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनल के माध्यम से निवेशक को बेहतर सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चूंकि राष्ट्रव्यापी टर्मिनल वाले एनएसई पर कम्पनी सूचीबद्ध है, अतः निवेशक को सम्पूर्ण देश में कम्पनी की शेयरों में व्यापार तथा खरीद-फरोख्त करने की सुगमता उपलब्ध है तथा इससे निवेशकों का हित प्रभावित नहीं होगा।

कम्पनी की इन्वैटी शेयरों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीकरण जारी रहेगा।

सोमा टेक्स्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता. / (ए.के. मिश्रा)
कम्पनी सचिव
सदयता नं.: ACS 47060

स्थान: कोलकाता
तिथि: 01.04.2021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
आस्ति वसूली शाखा, 26/28-डी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001)
ईमेल: arbdelhi@unionbankofindia.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निवम 2002 के नियम 8/9 के साथ पठित वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अर्धीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण	कबजे की स्थिति नौतिक या सांकेतिक	कर्जदार / गारंटर से वसूल की जाने वाली राशि (₹.)	आरक्षित मूल्य (₹.)	नीलामी की तिथि एवं समय
23	उत्तराकर्ता - क) मैसर्स नरुला इलेक्ट्रिकल्स, 102, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद, इसके पार्टनर्स द्वारा प्रतिनिधित्व, 1. श्री विजय कुमार नरुला, 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक - त्यागी, परमाणु टर्मिनल सोसायटी, कोसिंग रिपब्लिक, ग्राम इंडवहेड, गाजियाबाद, 2. श्री विकास नरुला, निवासी: 8/19, राज नगर, गाजियाबाद, सु. पी. और 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक- त्यागी, प्लॉट नं. 8, परमाणु टर्मिनल सोसायटी, कोसिंग रिपब्लिक, गांव इंडवहेड, गाजियाबाद, 3. श्रीमती प्रेम रानी नरुला पत्नी श्री के.एल. नरुला, निवासी: 8/19, राज नगर, गाजियाबाद, सु. पी. और 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक- त्यागी, प्लॉट नंबर 8, परमाणु टर्मिनल सोसायटी, कोसिंग रिपब्लिक, गांव इंडवहेड, गाजियाबाद, सहकारकर्ता / गारंटर - क) श्री विजय कुमार नरुला पुत्र श्री के.एल. नरुला, ख) श्री विकास नरुला पुत्र श्री के.एल. नरुला, सी) श्री भरत कुमार नरुला पुत्र श्री के.एल. नरुला और श्रीमती ज्योति नरुला पत्नी श्री भरत कुमार नरुला	क. दुकान नं. सी-8/ए/एफएफ, द्वितीय तल, ओमैक्स सिटी सेक्टर गॉव फाजीलपुर, झण्डाला, सेक्टर-49, तहसील और जिला मुद्दगोव, हरियाणा में स्थित, लगभग 934.81 वर्ग फीट कॉन्पेट एरिया, चौधड़ी: उत्तर पश्चिम में - रास्ता, दक्षिण पूर्व में - अन्य की दुकान, पूर्व उत्तर में - अन्य				

राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू

जयपुर, 1 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण गुरुवार को शुरू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि राजस्थान ऐसी योजना लाने वाला देश का पहला राज्य है।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'राजस्थान सरकार की राज्य में सभी को नकदरहित उपचार उपलब्ध करवाने को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण गुरुवार को शुरू हो गया। यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा राहत उपलब्ध करवाना है।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लोग पंजीकरण करवाएं और उपचार के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ उठाएं।'

महाराष्ट्र में मार्च में कोरोना के 6.5 लाख मामले आए

मुंबई, 1 अप्रैल (भाषा)।

महाराष्ट्र में इस साल मार्च में कोविड-19 के 6,51,513 मामले आए जो पिछले पांच महीने में आए कुल मामलों का 88.23 फीसद है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल एक अक्टूबर और 28 फरवरी 2021 के बीच कोरोना के 7,38,377 मामले सामने आए। आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्व के महीनों की तुलना में मार्च 2021 में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में

लोग उपयुक्त व्यवहार नहीं अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोगों ने उचित दूरी के नियमों का पालन नहीं किया और मास्क भी नहीं लगाए। जिससे संक्रमण के मामले बढ़े हैं। राज्य कोविड-19 कार्यबल के एक सदस्य ने कहा, 'मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना राशि बढ़ाने के बारे में राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच कई बार चर्चा हुई। कुछ दबाव बनाया जा सकता था लेकिन सरकार निर्देशों का पालन करवाने को लेकर सख्ती नहीं करना चाहती।' हालांकि, राज्य की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य

अधिकारी ने कहा कि एक सीमा के बाद लोगों उधारे भी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा, 'राज्य में श्रमिक वर्ग (कम आय समूह) काम पर जाना चाहता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ भी यही स्थिति है। ये श्रम आधारित क्षेत्र हैं और हम लोगों को यात्रा से नहीं रोक सकते।' एक अन्य स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि साफ-सफाई व्यवहार और जीवन्-शैली से जुड़ा मामला है। कार्यस्थल या कार्यालय जाने पर हर समय हाथ धोने के लिए कहने पर लोग चिढ़ सकते हैं।

हाई कोर्ट ने अमेरिकी महिला की सजा घटाकर 11 माह की

नैनीताल, 1 अप्रैल (भाषा)।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिना वैध दस्तावेजों के भारत आई अमेरिकी की एक महिला को चार साल के कारावास की सजा को घटाकर 11 माह कर दिया है।

अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण खिल्ले ने चार साल के सश्रम कारावास की सजा को ग्यारह माह में बदल दिया और अधिकारियों से कहा कि वे उसे अपने देश वापस जाने दें क्योंकि वह अपनी सजा पहले ही काट चुकी है।

निचली अदालत ने मलिक को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मलिक के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत ने उसके अपराध के हिसाब से उसे कहीं बड़ी सजा दी है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं और भारत में रहने के दौरान महिला द्वारा कोई अन्य अपराध नहीं किया गया है।

भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने भारत-नेपाल सीमा पर जांच के दौरान अमेरिकी महिला को बस में उस समय पकड़ा था, जब वह वैध वीजा के बिना यात्रा कर रही थी।

नीलामी सूचना

दिनांक 01.04.2021 को श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री राममन निवासी वार्ड नं.-1, नगर पंचायत दौराला, जिला मेरठ की बचक भूमि कुल रकबई 2630 वर्ग मी. सम्बन्धित खसरा संख्या नं.-414 स्थित ग्राम मोवापुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद एवं बचक भूमि कुल रकबई 2640 वर्ग मी. सम्बन्धित खसरा संख्या नं.-415 स्थित ग्राम मोवापुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद को डिब्री निषादान में 92(ख) के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2021 को कुर्क कर लिया गया है। जिसकी नीलामी दिनांक 05.04.2021 को नोएडा कॉंग्रेसियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुख्यालय: 501, पंचम तल, सुन्दरम बिल्डिंग, आर.डी.सी., गाजियाबाद में निगमानुसार की जायेगी। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जो भी व्यक्ति नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हों उपरोक्त वर्णित स्थान पर दिनांक 05.04.2021 को दोपहर 2 बजे नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों।

नोट : नीलामी के समय रू 50 हजार टोकन मनी तथा सफल बोलीदाता को कुल रकम का 1/4 भाग जमा करना होगा तथा सरकारी व्यय नकद जमा करना होगा।

हस्ताक्षर (अजय कुमार) अपर जिला सहकारी अधिकारी/ प्रवधान नोएडा कॉ. को-ऑपरेटिव बैंक लि. गाजियाबाद

हस्ताक्षर (अजय कुमार) अधिकारी गाजियाबाद सहकारिता विभाग, गाजियाबाद

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

शाखा कार्यालय : 7 वीं मंजिल, इंडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, इंडियानेशन एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110055

अवलम्बित मूल्य का विवरण हेतु विवरण प्रस्तुत है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निरम 2002 के नियम 8 (6) के तहत) विस्तृत आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निरम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन अवलम्बित मूल्य का विवरण हेतु इ-नीलामी विक्रय सूचना क्रमांक 110055 (सूची संख्या)

निम्नलिखित शर्तनाम/सह-शर्तनामों को विवरण रूप से तथा अनुमानित रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूति लेनदार/टीसीएफएसएल) के पास निम्नलिखित नीचे वर्णित अवलम्बित मूल्य का विवरण हेतु इ-नीलामी विक्रय सूचना दिनांक 05.04.2021 को दोपहर 2 बजे नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों।

नोट : नीलामी के समय रू 50 हजार टोकन मनी तथा सफल बोलीदाता को कुल रकम का 1/4 भाग जमा करना होगा तथा सरकारी व्यय नकद जमा करना होगा।

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110 019
Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India
Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
Telephone: +91 11 26436336; Website: www.hcltech.com
Email Id: Investors@hcl.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the following equity share certificates issued by the Company are stated to have been lost and the Company is proceeding to issue the duplicate share certificates in lieu of the same.

Name of the Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	Face Value	No. of shares
Uma Datta		14669	250371627 - 250371726		100
Jt. Vice Admiral N.P. Datta	0014021	286720	325497619 - 325497818	Rs. 2/-	200
		291610	702867862 - 702868261		400
		400204	1428256061 - 1428256860		800

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent, along with sufficient proof, within 15 days of publication of this notice, after which no claim(s) shall be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificates. The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person dealing with the above share certificates shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent
Link Intime India Private Limited
(Unit: HCL Technologies Limited)
C-101, 247 Park, L.B.S. Marg,
Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083
E-mail: mt.helpdesk@linkintime.co.in
Date: April 1, 2021
Place: Noida (U.P.)

For HCL Technologies Limited
Manish Anand
Company Secretary

सोमा टेक्स्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L51909WB1940PLC010070

पंजीकृत कार्यालय: 2, रेड क्रॉस प्लेस, कोलकाता-700001, वेस्ट बंगाल
टेली: 033-22487406; ईमेल: investors@somatextiles.com
वेबसाइट: www.somatextiles.com

सर्वा (इन्वॉल्ट) शेयरों का असूचीकरण) विनिमय, 2009 के प्रावधानों (ए) तथा 7 के अनुपालन में स्वीच्छक असूचीकरण के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009, समय-समय पर यथा-संबोधित के विनियम 6(ए) तथा विनियम 7 के अनुपालन में 30 मार्च, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने वीएसई लिमिटेड से कम्पनी की इन्वॉल्ट शेयरों के स्वीच्छक असूचीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह कम्पनी वीएसई लिमिटेड से अपनी इन्वॉल्ट शेयरों के स्वीच्छक असूचीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

असूचीकरण की आवश्यकता तथा उद्देश्य: वीएसई लिमिटेड पर इन्वॉल्ट शेयरों का नगण्य ट्रेडिंग होता है। जबकि, कम्पनी की शेयरों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर निर्यात रूप से व्यापार होता है। पुनः वीएसई लिमिटेड से असूचीकरण का उद्देश्य वीएसई लिमिटेड को देय सूचीयन शुल्कों पर आयती व्यय का बचत करना है जहां कम्पनी की इन्वॉल्ट शेयरों का नगण्य व्यवसाय होता है तथा सेबी (सूचीयन दिव्य एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विभिन्न विनियमनों के समय-समय पर विविध अनुपालनों में कारण अनावश्यक विचारी तथा प्रशासनिक बोझ से बचाव तथा राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनल के माध्यम से निवेशक को बेहतर सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चूंकि: राष्ट्रव्यापी टर्मिनल वाले एनएसई पर कम्पनी सूचीयन है, अतः निवेशक को सम्पूर्ण देश में कम्पनी की शेयरों में व्यापार तथा खरीद-फरोख्त करने की सुगमता उपलब्ध है तथा इससे निवेशकों का हित प्रभावित नहीं होगा।

कम्पनी की इन्वॉल्ट शेयरों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीकरण जारी रहेगा।

सोमा टेक्स्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता. / (ए.के. मिश्रा)
कम्पनी संव्यव
सदस्यता नं.: ACS 47060

स्थान: कोलकाता
तिथि: 01.04.2021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra
कार्पोरेशन Corporation

आस्टि वसुली शाखा, 26/28-डी, क्वांट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, क्वांट प्लेस, नई दिल्ली-110001)

ईमेल: arbdelhi@unionbankofindia.com

पूर्व नौकरशाह मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल

श्रीनगर, 1 अप्रैल (भाषा)।

पूर्व नौकरशाह और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद अशरफ मीर गुरुवार को यहां सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मीर पार्टी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता बशीर अहमद डार की मौजूदगी में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) में शामिल हुए।

विशेष रेलगाड़ियाँ

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियाँ नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार चलाई जाएंगी:-

गाड़ी सं.	02438	स्टेशन	गाड़ी सं.	02437
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
—	15:35	हजरत निजामुद्दीन	▲	10:30
13:35	—	सिकंदराबाद	—	12:50

चलने के दिन : 02438 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक रविवार को दिनांक 04.04.2021 अगले आदेश तक तथा 02437 सिकंदराबाद से प्रत्येक बुधवार को दिनांक 07.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : प्रथम वातानुकूलित, 2 टियर वाता. एवं 3 टियर वाता।

उद्धारव: झांसी, भोपाल जं., नागपुर, बलारशाह एवं काजीपेट जं. स्टेशन।

06787 / 06788 तिरुनेलवेलि जं. विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

गाड़ी सं.	06787	स्टेशन	गाड़ी सं.	06788
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
—	16:45	तिरुनेलवेलि जं.	▲	19:00
10:35	—	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	—	22:30

चलने के दिन : 06787 तिरुनेलवेलि जं. से प्रत्येक सोमवार को दिनांक 12.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06788 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से प्रत्येक गुरुवार को दिनांक 15.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : 2 टियर वाता, 3 टियर वाता, शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।

उद्धारव: बाम्बो मणियाच्चि जं., कोविलपट्टि, सातूर, विरुदुनगर जं., मदुरै जं., कोडैकनमल रोड, इडुक्कल जं., तिरुचिरापल्लि जं., कन्नूर जं., ईरोड जं., सेलम जं., जोलारपट्टे जं., काटपाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेणुगुटा जं., नेल्लूर, ओंगोल, तेनाली जं., विजयवाड़ा जं., खम्मम, वरंगल, रामगुडम, बलारशाह, चंद्रपुर, सेवाग्राम, नागपुर, इटारसी जं., भोपाल जं., झांसी, ग्वालियर जं., धौलपुर जं., आगरा छावनी, फरीदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, शकुलबस्ती, बहादुरगढ़, रोहतक जं., जुलाना, जींद जं., बरसोला, उजाना, नरवाना जं., टोहाना, जाखल जं., लेहसामगा, सुनाम उधम सिंह वाला, संगरूर, धुरी जं., मलेरकोटला, अहमदगढ़, तुषियाना जं., फगवाड़ा जं., जलंधर छावनी जं., मुकेशपुर, पठानकोट छावनी, कडुआ, जम्मू तवी एवं उधमपुर स्टेशन।

06167 / 06168 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

गाड़ी सं.	06167	स्टेशन	गाड़ी सं.	06168
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
—	14:15	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	▲	07:05
17:50	—	हजरत निजामुद्दीन	—	05:10

चलने के दिन : 06167 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से प्रत्येक मंगलवार को दिनांक 13.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06168 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 16.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : 2 टियर वाता, 3 टियर वाता, शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।

उद्धारव: कोल्लम जं., कायमकुलम जं., आलपुथा, एरणाकुलम जं., आतुवा, तुश्तूर, पलघाट, कोयंबतूर जं., तिरुपूर, इरोड जं., सेलम जं., काटपाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेणुगुटा जं., तूतूर जं., ओंगोल, विजयवाड़ा जं., वरंगल, बलारशाह, नागपुर, आमला जं., बैतूल, इटारसी जं., भोपाल जं., बीना जं., झांसी, ग्वालियर जं., आगरा छावनी एवं मथुरा जं. स्टेशन।

06167 / 06168 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

गाड़ी सं.	06167	स्टेशन	गाड़ी सं.	06168
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
—	14:15	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	▲	07:05
17:50	—	हजरत निजामुद्दीन	—	05:10

चलने के दिन : 06167 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से प्रत्येक मंगलवार को दिनांक 13.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06168 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 16.04.2021 अगले आदेश तक।

स्थान : 2 टियर वाता, 3 टियर वाता, शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।

उद्धारव: कोल्लम जं., कायमकुलम जं., आलपुथा, एरणाकुलम जं., आतुवा, तुश्तूर, पलघाट, कोयंबतूर जं., तिरुपूर, इरोड जं., सेलम जं., काटपाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेणुगुटा जं., तूतूर जं., ओंगोल, विजयवाड़ा जं., वरंगल, बलारशाह, नागपुर, आमला जं., बैतूल, इटारसी जं., भोपाल जं., बीना जं., झांसी, ग्वालियर जं., आगरा छावनी एवं मथुरा जं. स्टेशन।

नोट: उपरोक्त विशेष रेलगाड़ियाँ पूर्णतः आरक्षित श्रेणी को हित्वा से युक्त होंगी।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदम हेल्थलाइन नं. 139

रेलमदम वेबसाइट देखें : www.railmadad.indianrailways.gov.in

रेलमदम ऐप डाउनलोड करें

उत्तर रेलवे

आपकी सुविधा - हमारा ध्येय

पर हमें फॉलो करें

आहर्कों की सेवा में मुस्कान के साथ

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल संपत्तिका का विवरण	कबजे की स्थिति मौकित या सांकेतिक	कर्जदार / गारंटर से वसूली की जाने वाली राशि (₹.)	आरक्षित मूल्य (₹.) धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
23	उत्तराखण्ड - क) मेसर्स नरुला इलेक्ट्रिकल्स, 102, नमगुण मार्केट, गाजियाबाद, इसके पारदर्शक द्वारा प्रतिनिधित्व, 1. श्री विजय कुमार नरुला, 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक - त्यागी, परामाउट सिम्फनी सोसायटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्राम इंडोरेड, गाजियाबाद, 2. श्री विकास नरुला, निवासी: 8/19, राज नगर, गाजियाबाद, यू.पी. और 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक- त्यागी, प्लॉट नं. 6, परामाउट सिम्फनी सोसायटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गांव इंडोरेड, गाजियाबाद, 3. श्रीमती प्रेम रानी नरुला पत्नी श्री के.एल.नरुला, निवासी: 8/19, राज नगर, गाजियाबाद, यू.पी. और 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक- त्यागी, प्लॉट नंबर 6, परामाउट सिम्फनी सोसायटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गांव इंडोरेड, गाजियाबाद, बंधककर्ता/गारंटर: - क) श्री विजय कुमार नरुला पुत्र श्री के.एल.नरुला, ख) श्री विकास नरुला पुत्र श्री के.एल.नरुला, सी) श्री भरत कुमार नरुला पुत्र श्री के.एल.नरुला और श्रीमती ज्योति नरुला पत्नी श्री भरत कुमार नरुला	क. सुकान नं. सी-8/ए/एफ, द्वितीय तल, ओम्नेक्स सिटी सेंटर गॉव फाजीलपुर, झाड़ासा, सेक्टर-49, तहसील और जिला मुड़गाँव, हरियाणा में स्थित, लगभग 934.81 वर्ग फीट कोरपेट एरिया, चौहद्दी: उत्तर पश्चिम में - रास्ता, दक्षिण पूर्व में - अन्य की दुकान, पूर्व उत्तर में - अन्य की दुकान, पूर्व उत्तर में - दुकान नं. सी-9, पश्चिम दक्षिण में - दुकान नं. सी-7	सांकेतिक कब्जा	₹ 3,07,68,552.74 दिनांक 17.09.2015 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 67.00 लाख ₹. 6.70 लाख ₹. 25,000/- ₹. 37.00 लाख ₹. 3.70 लाख ₹. 25,000/-	19-04-2021 अर्था. 01.00 बजे से अर्था. 03.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
24	मेसर्स अश्विनी डायमंड ज्वेलरी, प्लॉट नं. 3216, तृतीय तल, खसरा नं. 2708/2816, ब्लॉक - पी, गली नं. 30-31, बिनडनपुर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 प्रोपराइटर: श्री अश्वनी वर्मा पुत्र धर्मवीर वर्मा, श्रीमती पुनम वर्मा (बंधककर्ता), निवासी ई-ई-81/82, ब्लॉक-ई, कामरुज्जमन नगर, शिवदाम बार्क, शानि बाजार, गंगलौड़ी, दिल्ली-110041 गारंटर: श्री धर्म वीर वर्मा (गारंटर) और श्री रविन्द्र वर्मा (गारंटर)	ख. अपार्टमेंट द्वितीय तल प्लॉट नं. एफ-6, KI-163 ब्लॉक - 1, कपि नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 919.42 वर्ग फीट सुपर क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल 771.56 वर्ग फीट, चौहद्दी: पूर्व में - अन्य का प्लॉट, पश्चिम में - रोड, उत्तर में - प्लॉट नं. 164, दक्षिण में - प्लॉट नं. 162	भौतिक कब्जा	₹ 3,09,78,376.67 दिनांक 31.07.2016 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 63.50 लाख ₹. 6.35 लाख ₹. 50,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्था. 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
25	उत्तराखण्ड - मेसर्स जी आर फूड्स, 1648, प्रथम तल, सेक्टर ए, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद - 121001, और रोड नं. 12/16, गुरुकुल इंजीनियरिंग एरिया, ग्रीन फील्ड कॉलोनी के पास, फरीदाबाद - 121001, गारंटर: क) श्री वेद भगवान कटोरिया, ख) श्री विक्रम सिंह	सम्पत्तिका का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि	सांकेतिक कब्जा	₹ 2,30,42,868.09 दिनांक 30.11.2020 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 25.00 लाख ₹. 2.50 लाख ₹. 10,000/-	19-04-2021 अर्था. 01.00 बजे से अर्था. 03.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
26	मेसर्स जिनेन्द्र सिट्टन एंड ट्यूब्स प्रा. लि., 26/1 शिव गंगा इंजीनियरिंग एस्टेट गॉव लाकेश्वरी, भगवानपुर, रुड़की, उत्तरांचल-247661 निदेशक / गारंटर: 1. श्री संजय पोदार, 2. सुश्री मीनाक्षी पोदार, 3. सुश्री कोशला देवी पोदार	क्र.सं. मशीनरी का नाम 1. 82.5 कॅपीए साइलेंट डीजल जेनरेटर सभी सामान के साथ सेट 2. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 3. फ्रेजिकेटिड एंगल और शीट वर्क - एमएस और मोल्ड्स और लिड्स 4. फेमिली पैक विस्कट पैकेजिंग मशीन 5. हाई-स्पीड मिक्सर मशीन 6. बन डिवाइडर मशीन और मोल्डर मशीन 7. रोटीरी ओवन मशीन (4 नग), हाई-स्पीड स्लाइडर मशीन, स्प्राइडर मिक्सर मशीन, कुकी ड्रॉपिंग मशीन, और रिविंग ट्रे ओवन मशीन	भौतिक कब्जा	₹ 30,40,60,483.43 दिनांक 30.04.2013 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 250.00 लाख ₹. 25.00 लाख ₹. 1,00,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्था. 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
27	मेसर्स तबाशिरा रिटेल प्रा. लि., जी 9 साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली, और बी-35 दीवान हाउस अजय एक्लेव नई दिल्ली-110018 निदेशक / गारंटर: क) श्री दिनेश सहगल पुत्र स्व. श्री एस.एल. सहगल (प्रबंधन निदेशक), श्री उदित सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक/गारंटर), श्री निवेश सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक/गारंटर), श्री हर्ष सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक/गारंटर), 1. व्हीलरजी इम्पेक्स प्रा. लि., 2. श्रीमती बीना सहगल स्व. श्री पी.के. सहगल	प्लॉट नं. एच-64 (बिना छत के अधिकार के, भूतल और प्रथम तल), साउथ एक्सटेंशन - 1, नई दिल्ली-110049 (प्रत्येक तल का क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट) चौहद्दी: उत्तर में - सॉर्सिज लेन, दक्षिण में - रोड / प्रवेश, पूर्व में - प्लॉट नं. एच-63, पश्चिम में - प्लॉट नं. एच-65	भौतिक कब्जा	₹ 45,81,85,633.45 दिनांक 31.03.2020 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 333.00 लाख ₹. 33.30 लाख ₹. 1,00,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्था. 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
28	कर्जदार:- क) मेसर्स पिनाकेल इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, मकान नं. 60, आदर्श नगर बल्लबगढ़, फरीदाबाद, गारंटर:- क) मेसर्स गंगा पुत्र श्री कुंज बिहारी गुप्ता, ख) श्री गंगा राम पुत्र श्री बाल किशन	क. मेसर्स पिनाकेल इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से अधिकृत भूमि, जिसका सम्पत्ति क्षेत्रफल 2 कनाल 9 मारला (1482 वर्ग गज) खेत/खाता नं. 100/106 का शेष हिस्सा, रकत नं. 51, किला नं. 3/1/3(2-0), 8/1/1/2/1(0-9) मौजा मेट्टोल, तहसील होडल जिला पलवल में स्थित और चौहद्दी: पूर्व में - 33 फीट रोड, पश्चिम में - अन्य का प्लॉट, उत्तर में - अन्य का प्लॉट ख. सम्पत्तिका का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति मकान नं. एफसीए 60, क्षेत्रफल 120 वर्ग गज, रकत नं. 31 का शेष हिस्सा, किला नं. 7, ब्लॉक ई, गली नं. 4, आदर्श नगर, मलेरगा रोड, मौजा ऊर्वा गॉव, तहसील बल्लमगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित, यह सम्पत्ति श्री संजय गुप्ता के नाम पर है। चौहद्दी: पूर्व में - प्लॉट नं. 59, पश्चिम में - प्लॉट नं. 61, उत्तर में - रोड, दक्षिण में - अन्य की सम्पत्ति	भौतिक कब्जा	₹ 2,24,70,748/- दिनांक 01.12.2018 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 75.00 लाख ₹. 7.50 लाख ₹. 50,000/- ₹. 31,05,000/- ₹. 3,10,500/- ₹. 50,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्था. 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

राजस्थान में स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू

जयपुर, 1 अप्रैल (भाषा)।

राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण गुरुवार को शुरू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि राजस्थान ऐसी योजना लाने वाला देश का पहला राज्य है।

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'राजस्थान सरकार की राज्य में सभी को नकदरहित उपचार उपलब्ध करवाने को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण गुरुवार को शुरू हो गया। यह हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के सभी निवासियों को चिकित्सा राहत उपलब्ध करवाना है।'

मुख्यमंत्री ने कहा, 'राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लोग पंजीकरण करवाएं और उपचार के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ उठाएं।'

महाराष्ट्र में मार्च में कोरोना के 6.5 लाख मामले आए

मुंबई, 1 अप्रैल (भाषा)।

महाराष्ट्र में इस साल मार्च में कोविड-19 के 6,51,513 मामले आए जो पिछले पांच महीने में आए कुल मामलों का 88.23 फीसद है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल एक अक्टूबर और 28 फरवरी 2021 के बीच कोरोना के 7,38,377 मामले सामने आए। आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्व के महीनों की तुलना में मार्च 2021 में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी मुख्य वजह यह है कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में

लोग उपयुक्त व्यवहार नहीं अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कई लोगों ने उचित दूरी के नियमों का पालन नहीं किया और मास्क भी नहीं लगाए। जिससे संक्रमण के मामले बढ़े हैं। राज्य कोविड-19 कार्यबल के एक सदस्य ने कहा, 'मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना राशि बढ़ाने के बारे में राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच कई बार चर्चा हुई। कुछ दबाव बनाया जा सकता था लेकिन सरकार निर्देशों का पालन करवाने को लेकर सख्ती नहीं करना चाहती।' हालांकि, राज्य की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य

अधिकारी ने कहा कि एक सीमा के बाद लोगों उधरने नहीं बनीया जा सकता। उन्होंने कहा, 'राज्य में श्रमिक वर्ग (कम आय समूह) काम पर जाना चाहता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ भी यही स्थिति है। ये श्रम आधारित क्षेत्र हैं और हम लोगों को यात्रा से नहीं रोक सकते।' एक अन्य स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि साफ-सफाई व्यवहार और जीवन्-शैली से जुड़ा मामला है। कार्यबल या कार्यालय जाने पर हर समय हाथ धोने के लिए कहने पर लोग चिढ़ सकते हैं।

हाई कोर्ट ने अमेरिकी महिला की सजा घटाकर 11 माह की

नैनीताल, 1 अप्रैल (भाषा)।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बिना वैध दस्तावेजों के भारत आई अमेरिकी की एक महिला को चार साल के कारावास की सजा को घटाकर 11 माह कर दिया है।

अमेरिकी नागरिक फरीदा मलिक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण खिल्ले ने चार साल के सश्रम कारावास की सजा को ग्यारह माह में बदल दिया और अधिकारियों से कहा कि वे उसे अपने देश वापस जाने दें क्योंकि वह अपनी सजा पहले ही काट चुकी है।

निचली अदालत ने मलिक को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मलिक के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में दलील दी कि निचली अदालत ने उसके अपराध के हिसाब से उसे कहीं बड़ी सजा दी है। याचिका में यह भी कहा गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सौहार्दपूर्ण हैं और भारत में रहने के दौरान महिला द्वारा कोई अन्य अपराध नहीं किया गया है।

भारतीय सुरक्षाकर्मियों ने भारत-नेपाल सीमा पर जांच के दौरान अमेरिकी महिला को बस में उस समय पकड़ा था, जब वह वैध वीजा के बिना यात्रा कर रही थी।

नैलाामी सूचना	
दिनांक 01.04.2021 को श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री राममन निवासी वार्ड नं.-1, नगर पंचायत दौराला, जिला मेरठ की बचक भूमि कुल रकबाई 2630 वर्ग मी. सम्बन्धित खसरा संख्या नं.-414 स्थित ग्राम मोवापुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद एवं बचक भूमि कुल रकबाई 2640 वर्ग मी. सम्बन्धित खसरा संख्या नं.-415 स्थित ग्राम मोवापुर, परगना जलालाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद को डिब्री पिदाबाद में 92(ख) के अन्तर्गत दिनांक 25.03.2021 को कुर्क कर लिया गया है। जिसकी नीलामी दिनांक 05.04.2021 को नोएडा कॉमिंगशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुख्यालय: 501, पंचम तल, सुन्दरम बिल्डिंग, आर.डी.सी., गाजियाबाद में नियमानुसार की जांचगी। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जो भी व्यक्ति नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हों उपरोक्त वर्णित स्थान पर दिनांक 05.04.2021 को दोपहर 2 बजे नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों।	हस्ताक्षर (अरुण तोपर) / विक्रय अधिकारी नोएडा कॉ. को-ऑपरेटिव बैंक लि. गाजियाबाद सहकारिता विभाग, गाजियाबाद
नोट : नीलामी के समय रु 50 हजार टोकन मनी तथा सफल बोलीदाता को कुल रकम का 1/4 भाग जमा करना होगा तथा सरकारी व्यय नकद जमा करना होगा।	हस्ताक्षर (अजय कुमार) अपर जिला सहकारी अधिकारी/ प्रवधान अधिकारी नोएडा कॉ. को-ऑपरेटिव बैंक लि. गाजियाबाद सहकारिता विभाग, गाजियाबाद

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
 शाखा कार्यालय : 7 बी मॉडल, विडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, इंटरनेटयानन एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति का विक्री हेतु विक्री सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के तहत) वित्तिय आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्वर्णन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पंढित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन अचल आरितियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना क्रमा संख्या सं. 5033677 (सूची नम्बर)

निम्नलिखित श्रृंखला/सह-श्रृंखला को विक्रय रूप से तथा अनुसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूति लेनदार/टीसीएफएसएल) के पास गिरेवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति विक्रय का टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूति लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, "जैसे है जहाँ है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" के अन्वय पर 24 अप्रैल, 2021 को विक्री को जायेगी।

जबकि प्रतिभूत आरित का विक्रय प्रतिभूत अर्थ को वसूली के लिए किया जाना है तथा जबकि कर्जदार/सह-कर्जदार अर्थात् 1. सुधीर बजाज, 2. नन्दन बजाज, 3. श्रीमती कान्ना बजाज उर्फ कान्ना, 4. श्रीमती सीता बजाज, 5. मेसर्स इंटेलिजेंस ओरियन्टल प्रा.लि., इसके निदेशक के माध्यम से, से 17 दिसम्बर, 2019 तक समस्त लागतों, व्यय आदि सहित रु. 1,50,08,747.14/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख आठ हजार सात सौ बीसतीस एवं चौराह पैसे मात्र) बचका था।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्ब/अनियन्तन के उपस्थित होने पर कवित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से कवित 24 अप्रैल, 2021 को 2 बजे अपरतल टीसीएफएसएल द्वारा 7वीं मंजिल, विडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, इण्डियानागर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 पर की जायेगी। इंप्रूवि, डिमांड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति की खरीद हेतु मुहत्त्व ई-नीलामी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा 23 अप्रैल, 2021 को 5 बजे अथ. तक प्रेषण की जायेगी।

सम्पत्ति सं. सी-898डी (बी), ब्लॉक सं. बी, सुभाष नगर के "सुभाष नगर" सहकारी	कर्जदार का प्रकार (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.)	बिक्री मूल्य (रु.)
सम्पत्ति सं. सी-898डी (बी), ब्लॉक सं. बी, सुभाष नगर के "सुभाष नगर" सहकारी	सहकारी	1,51,00,000/-	15,10,000/-

विक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में है। प्रतिभूत लेनदार का ज्ञात माननीय अर्थ वसूली अधिकारी दिल्ली के साथ संचालित है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस विक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे विक्री को निवेदित वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्थात् या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह विक्री सरकारी अधिनियम, 2002 में निर्दिष्ट नियमों/शर्तों के अन्वय होगी।

ई-नीलामी प्रक्री 10 मिनट के अन्तर्गत विस्तार सहित 24 अप्रैल, 2021 को 2.00 बजे अपरतल से 3.00 बजे अपरतल के बीच चलेगी <https://disposalportal.com> के माध्यम से की जायेगी। सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त सट्टियाँ/अंश के साथ कर तिथि के अनुसार जमा प्रेषित नहीं हैं दिल्ली में देर "टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लि." के पत्र में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीएस के रूप में जमा करनी होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण 14.04.2021 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे तक के बीच किया जा सकता है।

नोट : इच्छुक अधिकृत अधिकृत अधिकारी को ज्ञापित सहकारण, ई-मेल आरटीडी : jagdeep.schrawat@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. 858806158 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् <https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcis/ AuctionTERMS%20CONDITIONS.pdf> में प्रभावप्रति लिंक देकर अथवा अधिकृत अधिकारी या सेवा प्रदाता नक्सनेन सल्ल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें।

स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा
 तिथि : 02.04.2021

अधिकृत अधिकारी
 टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

HCL TECHNOLOGIES LIMITED
 Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi - 110 019
 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, Noida-201 304, U.P., India
 Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369
 Telephone: +91 11 26436336; Website: www.hcltech.com
 Email Id: Investors@hcl.com

PUBLIC NOTICE
 Notice is hereby given that the following equity share certificates issued by the Company are stated to have been lost and the Company is proceeding to issue the duplicate share certificates in lieu of the same.

Name of the Shareholder	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	Face Value	No. of shares
Uma Datta		14669	250371627 - 250371726		100
Jt. Vice Admiral N.P. Datta	0014021	286720	325497619 - 325497818	Rs. 2/-	200
		291610	702867862 - 702868261		400
		400204	1428256061 - 1428256860		800

Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent, along with sufficient proof, within 15 days of publication of this notice, after which no claim(s) shall be entertained and the Company will proceed to issue duplicate share certificates. The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way with the above share certificates. Any person dealing with the above share certificates shall be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner whatsoever.

Our Transfer Agent
 Link Intime India Private Limited
 (Unit: HCL Technologies Limited)
 C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083
 E-mail: mt.helpdesk@linkintime.co.in
 Date: April 1, 2021
 Place: Noida (U.P.)

For HCL Technologies Limited
 Manish Anand
 Company Secretary

सोमा टेक्स्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 CIN: L51909WB1940PLC010070
 पंजीकृत कार्यालय: 2, रेड क्रॉस प्लेस, कोलकाता-700001, वेस्ट बंगाल
 टेली: 033-22487406; ईमेल आईडी: investors@somatextiles.com
 वेबसाइट: www.somatextiles.com

सर्वा (इन्वॉल्ट शर्तों का असूचिकरण) विधानमन्त्र, 2009 के विधानमन्त्र 6(ए) तथा 7 के अनुपालन में स्वीच्छक असूचिकरण के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड (इन्वॉल्ट शर्तों का असूचिकरण) विनियमन, 2009, समय-समय पर यथा-संशोधित के विनियमन 6(ए) तथा विनियमन 7 के अनुपालन में 30 मार्च, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने वीएसई लिमिटेड से कम्पनी की इन्वॉल्ट शर्तों के स्वीच्छक असूचिकरण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह कम्पनी वीएसई लिमिटेड से अपनी इन्वॉल्ट शर्तों के स्वीच्छक असूचिकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

असूचिकरण की आवश्यकता तथा उद्देश्य:
 वीएसई लिमिटेड पर इन्वॉल्ट शर्तों का नगण्य ट्रेडिंग होता है। जबकि, कम्पनी की शर्तों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर निर्यात रूप से व्यापार होता है। पुनः वीएसई लिमिटेड से असूचिकरण का उद्देश्य वीएसई लिमिटेड को देय सूचीयन शुल्कों पर आवृत्ति प्रत्यक्ष का बचत करना है जहां कम्पनी की इन्वॉल्ट शर्तों का नगण्य व्यवसाय होता है तथा सेबी (सूचीयन दिव्य एवं उद्घाटन अधिका) विनियमन, 2015 के विभिन्न विनियमनों के समय-समय पर विविध अनुपालनों के कारण अनावश्यक विचारी तथा प्रशासनिक बोझ से बचाव तथा राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनल के माध्यम से निवेशक को बेहतर सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। चूंकि: राष्ट्रव्यापी टर्मिनल वाले एनएसई पर कम्पनी सूचीयन है, अतः निवेशक को सम्पूर्ण देश में कम्पनी की शर्तों में व्यापार तथा खरीद-फरोख्त करने की सुगमता उपलब्ध है तथा इससे निवेशकों का हित प्रभावित नहीं होगा।

कम्पनी की इन्वॉल्ट शर्तों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीकरण जारी रहेगा।

सोमा टेक्स्टाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
 हस्ता. / (ए.के. मिश्रा)
 कम्पनी संवध
 सदयता नं.: ACS 47060

स्थान: कोलकाता
 तिथि: 01.04.2021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
 आरबीडी
 आंध्रा Andhra
 कार्पोरेशन Corporation

आस्ति वसूली शाखा, 26/28-डी, क्वांट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल : एम-35, प्रथम तल, क्वांट प्लेस, नई दिल्ली-110001)
ईमेल: arbdelhi@unionbankofindia.com

पूर्व नौकरशाह मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल

श्रीनगर, 1 अप्रैल (भाषा)।

पूर्व नौकरशाह और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद अशरफ मीर गुरुवार को यहां सज्जाद लोन के नेतृत्व वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मीर पार्टी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता बशीर अहमद डार की मौजूदगी में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) में शामिल हुए।

विशेष रेलगाड़ियाँ
 रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियाँ नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार चलाई जाएंगी :-

गाड़ी सं. 02438	स्टेशन	गाड़ी सं. 02437
आगमन प्रस्थान	हजरत निजामुद्दीन	आगमन प्रस्थान
13:35	सिकंदराबाद	12:50

वृत्तों के दिन : 02438 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक रविवार को दिनांक 04.04.2021 अगले आदेश तक तथा 02437 सिकंदराबाद से प्रत्येक बुधवार को दिनांक 07.04.2021 अगले आदेश तक।
 स्थान : प्रथम वातानुकूलित, 2 टियर वात. एवं 3 टियर वात।
 उद्घाटन : झांसी, भोपाल जं., नागपुर, बल्लारशाह एवं काजीपेट जं. स्टेशन।

गाड़ी सं. 06787	स्टेशन	गाड़ी सं. 06788
आगमन प्रस्थान	तिरुनेलवेलि जं.	आगमन प्रस्थान
16:45	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	19:00
10:35	श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा	22:30

वृत्तों के दिन : 06787 तिरुनेलवेलि जं. से प्रत्येक सोमवार को दिनांक 12.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06788 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से प्रत्येक गुरुवार को दिनांक 15.04.2021 अगले आदेश तक।
 स्थान : 2 टियर वात., 3 टियर वात., शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।
 उद्घाटन : बान्धी भणियाधि जं., कोविलपट्टि, सातूर, विरुदुनगर जं., मदुरै जं., कोडैकानन रोड, इडुक्कल जं., तिरुचिरापल्लि जं., कन्नूर जं., इरोड जं., सेलम जं., जोलारपेट्टे जं., काटपाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेणुगुटा जं., नेल्लूर, ओंगोल, तेनाली जं., विजयवाड़ा जं., खम्मम, वरंगल, रामगुडम, बल्लारशाह, चंद्रपुर, सेवाग्राम, नागपुर, इटारसी जं., भोपाल जं., झांसी, ग्वालियर जं., धौलपुर जं., आगरा छावनी, फरीदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, शकुर्बस्ती, बहादुरगढ़, रोहतक जं., जुलाना, जींद जं., बरसोला, उजाना, नरवाना जं., टोहाना, जाखल जं., लेहसामगा, सुनाम उधम सिंह वाला, संगरूर, धुरी जं., मलेरकोटला, अहमदगढ़, तुषियाना जं., फगवाड़ा जं., जलंधर छावनी जं., मुकेशपुरी, पठानकोट छावनी, कडुआ, जम्मू तवी एवं उधमपुर स्टेशन।

गाड़ी सं. 06167	स्टेशन	गाड़ी सं. 06168
आगमन प्रस्थान	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सुपरफास्ट विशेष एक्सप्रेस (साप्ताहिक)	आगमन प्रस्थान
14:15	तिरुवनंतपुरम सेंट्रल	07:05
17:50	हजरत निजामुद्दीन	05:10

वृत्तों के दिन : 06167 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से प्रत्येक मंगलवार को दिनांक 13.04.2021 अगले आदेश तक तथा 06168 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक शुक्रवार को दिनांक 16.04.2021 अगले आदेश तक।
 स्थान : 2 टियर वात., 3 टियर वात., शयनयान एवं द्वितीय श्रेणी (आरक्षित)।
 उद्घाटन : कोल्लम जं., कायमकुलम जं., आलपुथा, एरणाकुलम जं., आतुवा, तुशूर, पलघाट, कोयंबतूर जं., तिरुपूर, इरोड जं., सेलम जं., काटपाडी जं., चित्तूर, तिरुपति, रेणुगुटा जं., चूडूर जं., ओंगोल, विजयवाड़ा जं., वरंगल, बल्लारशाह, नागपुर, आमला जं., बैतूल, इटारसी जं., भोपाल जं., बीना जं., झांसी, ग्वालियर जं., आगरा छावनी एवं मथुरा जं. स्टेशन।

नोट: उपरोक्त विशेष रेलगाड़ियाँ पूर्णतः आरक्षित श्रेणी को हित्वा से युक्त होंगी।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139
 रेलमदद वेबसाइट देखें : www.railmadad.indianrailways.gov.in
रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

उत्तर रेलवे
 आपकी सुविधा - हमारा ध्येय
 आरबीडी
 पर हमें फॉलो करें
 आहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति सौकित या सांकेतिक	कर्जदार / गारंटर से वसूली की जाने वाली राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय
23	उत्तराकरल - क) मेसर्स नरुला इलेक्ट्रिकल्स, 102, नमगुड मार्केट, गाजियाबाद, इसके पारदर्शिता द्वारा प्रतिनिधित्व, 1. श्री विजय कुमार नरुला, 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक - त्यागी, परामाउट सिम्फनी सोसायटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, ग्राम इंडोरेड, गाजियाबाद, 2. श्री विकास नरुला, निवासी: 8/19, राज नगर, गाजियाबाद, यू.पी. और 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक- त्यागी, प्लॉट नं. 6, परामाउट सिम्फनी सोसायटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गांव इंडोरेड, गाजियाबाद, 3. श्रीमती प्रेम रानी नरुला पत्नी श्री के.एल.नरुला, निवासी: 8/19, राज नगर, गाजियाबाद, यू.पी. और 701, 7वीं मंजिल, ब्लॉक- त्यागी, प्लॉट नंबर 6, परामाउट सिम्फनी सोसायटी, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गांव इंडोरेड, गाजियाबाद, बंधककर्ता/गारंटर :- क) श्री विजय कुमार नरुला पुत्र श्री के.एल.नरुला, ख) श्री विकास नरुला पुत्र श्री के.एल.नरुला, सी) श्री भरत कुमार नरुला पुत्र श्री के.एल.नरुला और श्रीमती ज्योति नरुला पत्नी श्री भरत कुमार नरुला	क. सुकान नं. सी-8/एफएफ, द्वितीय तल, ओम्बेस सिटी सेंटर गॉव फाजीलपुर, झाड़ासा, सेक्टर-49, तहसील और जिला मुड़गाँव, हरियाणा में स्थित, लगभग 934.81 वर्ग फीट कोरपेट एरिया, चौहद्दी: उत्तर पश्चिम में - रास्ता, दक्षिण पूर्व में - अन्य की दुकान, पूर्व उत्तर में - अन्य की दुकान, पूर्व उत्तर में - दुकान नं. सी-9, पश्चिम दक्षिण में - दुकान नं. सी-7	सांकेतिक कब्जा	₹ 3,07,68,552.74 दिनांक 17.09.2015 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 67.00 लाख ₹. 6.70 लाख ₹. 25,000/- ₹. 37.00 लाख ₹. 3.70 लाख ₹. 25,000/-	19-04-2021 अर्थात् 01.00 बजे से अर्थात् 03.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
24	मेसर्स अश्विनी डायमंड ज्वेलरी, प्लॉट नं. 3216, तृतीय तल, खसरा नं. 2708/2616, ब्लॉक - पी, गली नं. 30-31, बिनडनपुर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 प्रोपराइटर: श्री अश्वनी वर्मा पुत्र धर्मवीर वर्मा, श्रीमती पुनम वर्मा (बंधककर्ता), निवासी ई-81/82, ब्लॉक-ई, कामरुज्जमन नगर, शिवराम बाग, शानि बाजार, गंगलौड़ी, दिल्ली-110041 गारंटर: श्री धर्म वीर वर्मा (गारंटर) और श्री रविन्द्र वर्मा (गारंटर)	ख. अपार्टमेंट द्वितीय तल प्लैट नं. एफ-6, KI-163 ब्लॉक - 1, कवि नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 919.42 वर्ग फीट सुपर क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल 771.56 वर्ग फीट, चौहद्दी: पूर्व में - अन्य का प्लॉट, पश्चिम में - रोड, उत्तर में - प्लॉट नं. 164, दक्षिण में - प्लॉट नं. 162	सांकेतिक कब्जा	₹ 3,09,78,376.67 दिनांक 31.07.2016 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 63.50 लाख ₹. 6.35 लाख ₹. 50,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्थात् 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
25	उत्तराकरल - मेसर्स जी आर फूड्स, 1648, प्रथम तल, सेक्टर ए, ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद - 121001, और रोड नं. 12/16, गुरुकुल इंजीनियरिंग एरिया, ग्रीन फील्ड कॉलोनी के पास, फरीदाबाद - 121001, गारंटर: क) श्री वेद भगवान कटोरिया, ख) श्री विक्रम सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि	सांकेतिक कब्जा	₹ 2,30,42,868.09 दिनांक 30.11.2020 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 25.00 लाख ₹. 2.50 लाख ₹. 10,000/-	19-04-2021 अर्थात् 01.00 बजे से अर्थात् 03.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
26	मेसर्स जिनेन्द्र सिट्टन एंड ट्यूब्स प्रा. लि., 26/1 शिव गंगा इंजीनियरिंग एस्टेट गॉव लाकेश्वरी, भगवानपुर, रुड़की, उत्तरांचल-247661 निदेशक / गारंटर: 1. श्री संजय पोदार, 2. सुश्री मीनाक्षी पोदार, 3. सुश्री कोशल्या देवी पोदार	क्र.सं. मशीनरी का नाम 1. 82.5 कॅपीए साइलेंट डीजल जेनरेटर सभी सामान के साथ सेट 2. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 3. फ्रेजिकोटेड एंगल और शीट वर्क - एमएस और मोल्ड्स और लिड्स 4. फेमिली पैक विस्कट पैकेजिंग मशीन 5. हाई-स्पीड मिक्सर मशीन 6. बन डिवाइडर मशीन और मोल्डर मशीन 7. रोटररी ओवन मशीन (4 नॉव), हाई-स्पीड स्लाइडर मशीन, स्पाइलर मिक्सर मशीन, कुकी ड्रॉपिंग मशीन, और रिविंग ट्रे ओवन मशीन	भौतिक कब्जा	₹ 30,40,60,483.43 दिनांक 30.04.2013 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 250.00 लाख ₹. 25.00 लाख ₹. 1,00,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्थात् 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
27	मेसर्स तबाशिल रिटेल प्रा. लि., जी 9 साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली, और बी-35 दीवान हाउस अजय एक्लेव नई दिल्ली-110018 निदेशक / गारंटर: क) श्री दिनेश सहगल पुत्र रचं. श्री एस.एल. सहगल (प्रबंधन निदेशक), श्री उदित सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक/गारंटर), श्री निवेश सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक/गारंटर), श्री हर्ष सहगल पुत्र श्री दिनेश सहगल (निदेशक/गारंटर), 1. व्. लजपती इम्पेक्स प्रा. लि., 2. श्रीमती बीना सहगल रचं. श्री पी.के. सहगल	प्लॉट नं. एच-64 (बिना छत के अधिकार के, भूतल और प्रथम तल), साउथ एक्सटेंशन - 1, नई दिल्ली-110049 (प्रत्येक तल का क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट) चौहद्दी: उत्तर में - सविर्स लेन, दक्षिण में - रोड / प्रवेश, पूर्व में - प्लॉट नं. एच-63, पश्चिम में - प्लॉट नं. एच-65	भौतिक कब्जा	₹ 45,81,85,633.45 दिनांक 31.03.2020 तक और भविष्य का ब्याज, लागत, खर्च एवं अन्य प्रभार	₹. 333.00 लाख ₹. 33.30 लाख ₹. 1,00,000/-	19-04-2021 पूर्वा. 11.00 बजे से अर्थात् 01.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
28	कर्जदार:- क) मेसर्स पिनाकेल इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, मकान नं. 80, आदर्श नगर बल्लबगढ़, फरीदाबाद, गारंटर:- क) मेसर्स गंगा गुप्ता पुत्र श्री कुंज बिहारी गुप्ता, ख) श्री गंगा राम पुत्र श्री बाल किशन	क. मेसर्स पिनाकेल इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से अधिकृत भूमि, जिसका सम्पत्ति क्षेत्रफल 2 कनाल (1482 वर्ग गज) खेत/खाता नं. 100/106 का शेप हिस्सा, रैफ्ट नं. 51, किला नं. 3/1				

रजनीकांत यांना ददासाहेब फाळके पुरस्कार

... अन् जावडेकर संतापले

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अल्पबचतीच्या योजना, भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज दरकपात चौवीस तासांत मागे घेण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य बनवले. हा निर्णय विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतल्याची टीका गुरुवारी विरोधी पक्षांनी केली. अभिनेते रजनीकांत यांना ददासाहेब फाळके पुरस्कार जाहीर करण्याच्या वेळेवरही शंका घेतल्या जात आहेत.

'पत्रकारांनी योग्य प्रश्न विचारले पाहिजेत'
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी सकाळी दहा वाजता ज्येष्ठ अभिनेते रजनीकांत यांना ददासाहेब फाळके पुरस्कार दिला जात असल्याचे जाहीर केले. तमिळनाडूमध्ये ६ एप्रिल रोजी

विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून पाच दिवस आधी केंद्र सरकारने ही घोषणा केली.


रजनीकांत यांनी राजकीय पक्ष स्थापन केला असून विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता, पण प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. रजनीकांत यांच्या राजकीय पार्वभूमीमुळेही या पुरस्काराच्या वेळेबाबत जावडेकर यांना प्रश्न विचारला गेला. मात्र, सर्व गोष्टी राजकीय दृष्टिकोनातून पाहायच्या नसतात.

तुम्ही (पत्रकार) कहरच करत आहात. फाळके पुरस्कार हा चित्रपटसृष्टीशी संबंधित आहे. रजनीकांत गेली ५० वर्षे या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. पत्रकारांनी योग्य प्रश्न विचारले पाहिजेत, असा संताप जावडेकर यांनी व्यक्त केला.

लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

मुंबई : देशातील सर्वोच्च प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा ददासाहेब फाळके पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते रजनीकांत यांना जाहीर झाला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी सकाळी समाजमाध्यमांवरून पुरस्काराची घोषणा केली. खऱ्या अर्थाने देशातील कानाकोपऱ्यात लोकप्रिय असलेल्या, प्रत्येक पिढीला आपला वाटणाऱ्या अभिनेत्याची पुरस्कार समितीने एकमताने निवड केल्याची माहितीही जावडेकर यांनी दिली.

यंदाच्या पुरस्कार निवड समितीत सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले, दक्षिणात्य अभिनेता मोहनलाल,



दिव्यदर्शन सुभाष घई, प्रसिद्ध गायक-संगीतकार शंकर महादेवन आणि विश्वजीत चॅटर्जी या मान्यवरांचा समावेश होता. या समितीने एकमताने

'भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च पुरस्कारासाठी निवड केल्याबद्दल मी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानतो. माझ्यातील अभिनयगुण ओळखून नट बनण्यासाठी पोल्याहन देणारा माझा बसवाळक सहकारी आणि मित्र राज बहादूर यांचे मी आभार मानतो. आम्ही आर्थिक परिस्थिती बेताची असतानाही माझ्या संघर्षाच्या काळात माझ्यासाठी त्याग करणारा माझा भाऊ सत्यनारायण राव गायकवाड, मला 'द रजनीकांत' बनवणारे माझे गुरू के. बालचंद्र यांचेही मी आभार मानतो.'

रजनीकांत यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली. रजनीकांत यांना हा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर हिंदी आणि दक्षिणेकडील चित्रपटसृष्टीतील

महानायकाचे साधेपण...

हिंदी, कन्नड, तेलुगू, बंगाली आणि इंग्रजी भाषेतील चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या रजनीकांत यांनी तमिळनाडू हीच आपली कर्मभूमी मानली आहे. महानायक म्हणून गौरवला जाणारा हा अभिनेता वास्तवात लोकप्रियतेची कोणतीही झूल घेऊन वाचत नाही.

खलनायक ते सुपरस्टार...

सुरुवातीच्या काही खलनायकी भूमिका केल्यानंतर १९७८ साली पदार्थित झालेल्या 'मेरवी' या चित्रपटाने त्यांना सुपरस्टार' हे खिडक मिळवून दिले. त्यांच्या खास शैली आणि लकडीतील अभिनय आजही त्यांच्या चाहत्यांना वेड लावतो. देवाचा दर्जा देऊन पूजल्या जाणाऱ्या या अभिनेत्याचे जगभरात सर्वाधिक चाहता असलेला कलाकार म्हणून गिनीज बुकमध्ये नाव नोंदले गेले आहे.

अनेक मान्यवर कलाकारांनी समाजमाध्यमांवरून त्यांच्यावर अभिन्दनाचा वर्षाव केला. दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील या

'थलायवा' बद्दल लोकांच्या मनात असलेले प्रेम आणि त्यांच्याबद्दलचे आकर्षण आजही कमी झालेले नाही, याची प्रचीती खुद्द पंतप्रधान

दहशतवाद्यांचा गोळीबार, पोलीस शहीद

श्रीनगर : श्रीनगरच्या नौगम परिसरात गुरुवारी दहशतवाद्यांनी भाजप नेत्याच्या घरावर केलेल्या गोळीबारात एक पोलीस शहीद झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. भाजप नेते अन्वर अहमद हे बारामुल्ला जिल्हा सरचिटणीस असून ते सुरक्षित असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

दहशतवाद्यांनी भाजप नेत्याच्या निवासस्थानी असलेल्या सुरक्षा रक्षकांवर गोळीबार केला. त्यामध्ये कॉन्स्टेबल रमोज राजा हे जखमी झाले, त्यांना तातडीने एस्पएमएचएस रुग्णालयात नेण्यात आले तेथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

दरम्यान, हल्ला करणारे चार दहशतवादी लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेचे होते. या चार दहशतवाद्यांपैकी दोघांची ओळख घटली आहे, ते श्रीनगर शहरातील आहेत, शहीद खुर्रिद दार व ओवेद शफी दार अशी दोघा दहशतवाद्यांची नावे आहेत, असे काश्मीरच्या पोलीस महानिरीक्षकांनी सांगितले.

ममतांची निवडणूक

आयोगावर टीका

न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा

सूचनेनुसार काम करीत असल्याचा आरोप या वेळी ममतांनी केला. इतर राज्यांमधून आणण्यात आलेल्या गुंडांनी येथे गोंधळ माजवला आहे, मतदाराना धमकावण्यासाठी आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने भाडोत्री गुंड आणल्याचा आरोप ममतांनी केला आहे. बोयालमधील मतदान केंद्र क्रमांक सात येथे फेरमतदान घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे, निवडणूक आयोगाच्या कार्यकर्त्यांना भाजप समर्थक मारहाण करीत आहेत, असा आरोपही ममतांनी केला.

दरम्यान, नंदीग्राम मतदारसंघातील बोयाल येथे मतदान केंद्रबाहेर हिंसक घटना घडल्या त्याबद्दलचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश निवडणूक उपायुक्त सुदीप जैन यांनी गुरुवारी प्रशासनाला दिले.

नंदीग्राममध्ये

हिंसाचाराच्या

तुरळक घटना

नंदीग्राम : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी नंदीग्राम मतदारसंघातील अनेक मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. मतदारसंघात हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या असून काही टिकाणी मतदान केंद्रे ठप्प झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

ममतांनी विधानसभा मतदारसंघातील स्थितीची पाहणी केली तेव्हा निवडणूक प्रतिनिधींना मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचा तक्रारीतून गुणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी केल्या. ममतांनी सोनापुरा, रेयापारा, बलरामपूर, बोयाल, नंदीग्राम गट एक आणि दोन येथील मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. मतदाराना धमक्या देण्याचे आणि मतदान केंद्रे ठप्प करण्यात येत असल्याच्या जैथे तक्रारी होत्या अशा विविध गावांना व मतदान केंद्रांना ममतांनी भेटी दिल्या.

अर्थमंत्र्यांच्या 'नजरचुकी'ची समाजमाध्यमांवर खिल्ली

नवी दिल्ली, लोकसत्ता

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी रात्री जाहीर करण्यात आलेल्या व्याजदर कपातीचा निर्णय गुरुवारी सकाळीच मागे घेण्यात आल्याचे ट्वीट केल्यानंतर समाजमाध्यमांवर टीकेचा भडोमार करण्यात आला. निर्मला सीतारामन यांनी 'नजरचुकी'ची कबुली 'एप्रिल फूल'ला दिल्याने विरोधकांसह अनेकांनी हुज्या उडवत 'हॅपी ओक्टोबरसाइट डे' म्हणजेच नजरचूक दिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव दिवटरवर केला.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही नजरचूक दिवसाच्या शुभेच्छा देत, 'जुमलो की, झूट की, ये सरकार जतना के लूट की' असे ट्वीट केले. पेट्रोल डिझेलच्या माध्यमातून आधीच



लूट केली जात होती, आता निवडणूक संपल्यावर मध्यमवर्गाच्या बचतीवरील व्याजदर कमी करून लूट केली जात आहे, असेही राहुल यांनी ट्विटर संदेशात म्हटले आहे.

माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी 'मला खूप दुःख होत आहे, निर्णय मागे घेणारा मी एकटा अर्थमंत्री राहिलेला नाही', असे उपरोधिक ट्वीट सिन्हा यांनी केले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी

सरकारमध्ये यशवंत सिन्हा यांना अर्थसंकल्पातील घोषणा मागे घ्याव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे निर्णय मागे घेणारे अर्थमंत्री अशी टीका सिन्हा यांच्यावर होत होती.

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा निर्णय नजरचुकीने झाला की, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेले घुमघुम आहे, असा सवाल करत काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वडेरा यांनी केला. सीतारामन यांनी 'एप्रिल फूल' ३१ मार्चलाच केले का?, अशी टिप्पणी करत काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सिन्हा यांनी निर्णय मागे घ्याव्यात कारभार कसा चालत असेल याचे दर्शन घडले अशी टीका केली.

भारतीय जनता पक्ष लोकांना प्रलोभने देण्यात व्यस्त असताना कोणाच्या नजरचुकीने हा आदेश काढण्यात आला हे सीतारामन यांनी

सांगावे, असे काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी म्हटले आहे. तुणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डेरेंक ओब्रायन यांनीही मोदी-शाहा निवडणुकीत अवास्तव आश्वासने देण्यात गुंग असल्याचा हा परिणाम आहे, अशी चपकाव दिली. तर तुणमूल काँग्रेसच्या महू आ मित्रा यांनी, हा एप्रिल फूल करण्याचा हा सर्वात मोठा विनोद आहे का? असा सवाल केला.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही सीतारामन यांच्या निर्णयावर टीका केली. 'एवढा महत्त्वपूर्ण निर्णय जो सक्षम प्राधिकरणाच्या माध्यमातून घेतला जातो, त्यात नजरचूक होणे अशक्यच आहे. निवडणुकांना समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असून, निवडणुका झाल्यानंतर हा निर्णय पुन्हा लागू होण्याची शक्यता असल्याचे भूषण यांनी म्हटले आहे.

रस्तेविकासासाठी

राज्याला केंद्राकडून

२७८० कोटींचा निधी

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, गुरुवारी केंद्रीय रस्तेबांधणी व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितिन गडकरी यांनी रस्तेविकासासंदर्भात भरघोष घोषणा केल्या. महाराष्ट्रसह आसाम, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी तसेच, लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी निधी जाहीर केला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रासाठी २७८० कोटींचा निधी मंजूर केल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.

राज्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरण, फेरबांधणी व पुनर्वसनासाठी निधी पुरवला जाणार आहे. विदर्भात नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली जिल्हे, मराठवाड्यात बीड, परभणी, जालना, कोकणात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव आणि दक्षिण महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय मार्गांवर रस्तेविकासाची कामे केली जाणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाची बांधणी म्हणजे 'विकासाचा महामार्ग' असे गडकरी यांनी म्हटले आहे.

दिवसभरात ७२,३३० जणांना कोरोनाची लागण

पीटीआय, नवी दिल्ली

देशात गेल्या २४ तासांत आणखी ७२ हजार ३३० जणांना कोरोनाची लागण झाली असून हा या वर्षातील एका दिवसातील उच्चांक आहे. त्यामुळे एकूण बाधितांची संख्या एक कोटी २२ लाख २१ हजार ६६५ वर पोहोचली आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने गुरुवारी सांगण्यात आले.

देशात एक दिवसात कोरोनामुळे आणखी ४५९ जणांचा मृत्यू झाल्याने

देशातील यंदाचा उच्चांक, ४५९ जणांचा मृत्यू

मृतांची एकूण संख्या एक लाख ६२ हजार ९२७ वर पोहोचली आहे. उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येतही सलग २२ दिवस वाढ होत असून सध्या देशात पाच लाख ८४ हजार ०५५ उपचाराधीन रुग्ण आहेत. हे प्रमाण एकूण बाधितांच्या ४.७८ टक्के इतके आहे. कोरोनातून बरे होण्याचे प्रमाण आणखी कमी झाले असून ते ९३.८९ टक्के इतके झाले आहे. आतापर्यंत एक कोटी १४ लाख

७४ हजार ६८३ जण कोरोनातून बरे झाले असून मृत्यूदर १.३३ टक्के इतका आहे. देशात गेल्या २४ तासांत कोरोनामुळे ४५९ जणांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी २२७ जण महाराष्ट्रातील आहेत. देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे एक लाख ६२ हजार ९२७ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी ५४ हजार ६४९ जण महाराष्ट्रातील आहेत, असेही आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले.

भारतातून कापूस, साखर आयातीस

पाकिस्तान मंत्रिमंडळाचा नकार

इस्लामाबाद : भारतातून कापूस आणि साखर आयात करण्याचा पाकिस्तानच्या आर्थिक समन्वय समिती (ईसीसी)ने मांडलेला प्रस्ताव पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने फेटाळून लावला आहे. भारताबरोबर व्यापार नाही, असे मंत्रिमंडळाने स्पष्टपणे सांगितले आहे, असे ट्वीट मानवी हक्कमंत्री शिरीन माझारी यांनी केले. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी हे ट्वीट केले. भारत ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय जोपर्यंत रद्द करत नाही तोपर्यंत भारताबरोबरचे व्यवहार पूर्ववत केले जाणार नसल्याचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी स्पष्ट केल्याचे माझारी यांनी सांगितले.

तहव्वूर राणाला अतिरिक्त जबाब दाखल

करण्याची न्यायालयाची अनुमती

वॉशिंग्टन : पाकिस्तानी वंशाचा कॅनडातील उद्योगपती तहव्वूर राणा याने त्याचे भारतात प्रत्यापण करण्याच्या विरोधात अतिरिक्त जबाब सादर करण्याची केलेली विनंती अमेरिकेतील न्यायालयाने मान्य केली आहे. मुंबईवर २००८ मध्ये करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये राणा याचा सहभाग असल्याबद्दल त्याचे भारतात प्रत्यापण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भारताने फरारी घोषित केलेल्या राणाची वैयक्तिक प्रत्यापण सुनावणी १२ एप्रिल रोजी होणार आहे. राणाच्या

प्रत्यापणाच्या भारताच्या मागणीला अमेरिकेने पाठिंबा दिला आहे.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR
INDRA CIRCLE, JLN MARG, JAIPUR- 302004
No. JDA / EE&TA to Dir. Engg.-II/2021-22/D-46 Date : 01.04.2021

NOTICE INVITING BIDS
NIB No. : EE & TA to Dir. Engg.-II/01/2021-22
Bids are invited for works given below in various zones as per details given:

S. No.	Zone	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	A & F	Nature of Work	Last Date
1	EE-PRN South	UBN - JDA2021WSOB00421	270.00	217/2020-21	Road Cut Repair Work	20.04.2021

Details are available at Procurement Portal www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in
Raj. Samwad/C/137/2021-22
Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-II JDA, Jaipur

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

सार्वजनिक आरोग्य विभाग
फेर निविदा सूचना
ठामपा/पिआरओ/आरोग्य/१५५९/२०२०-२०२१ दिनांक २२/०३/२०२१ अन्वये ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ठाणे महानगरपालिकेच्या विभिन्न कोव्हीड रुग्णालयांसाठी Liquid Medial Oxygen पुरविणेसाठी ऑन.लाईन ई-टेंडरींग पध्दतीने निविदा मागविण्यात येत आहे.निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र ठाणे महानगरपालिकेचे संकेतस्थळवर <https://mahatenders.gov.in> दि.२०/०४/२१ ते दि.०८/०४/२१ पर्यंत सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होतील. दि.०८/०४/२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत ऑनलाईन निविदा स्विकारण्यात येतील. दि.०९/०४/२१ रोजी संध्या. ४.०० वाजता स्विकारलेल्या निविदा ऑनलाईन उघडण्यात येतील. ठामपा/पिआरओ/आरोग्य/०७/२१-२२ सही/-
दि.०१.०४.२०२१
वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे
www.thanecity.gov.in
संरक्षित रहा, कोरोना विचाणूपासून सुरक्षित रहा !

TENDER NOTICE
Hon. Balasaheb Thakare Agribusiness Rural Transformation Project
Lokmauli Agro Producer Co. Ltd., Tandulja, LATUR, Dist. Latur
invites sealed tenders for the following work

Sr. No.	Name of work	Amount of Tender Rs.	Cost of Tender Paper Rs.	Earnest Money Rs.	Period of Completion	Class of Contractor
1.	Construction of 1/2160 MT CAP Pre-Engineered WH BLDG work	1,50,17,169/-	5000/-	1,50,200/-	6 Months	1 to 3
2.	Date of Tender Issue	From Date: 02/04/2021 To Date: 22/04/2021				
3.	Date of Tender Receipt	From Date: 03/04/2021 To Date: 23/04/2021				
4.	Date of Tender Opening	From Date: 23/04/2021 TIME : 5:00 PM				
5.	Pre. Bid Meeting	From Date: 13/04/2021				

Blank tender papers are available in the office of Lokmauli Agro Producer Co. Ltd., Tandulja, LATUR Contractor has to submit the tender in one envelop

ई-जाहीर निविदा
कार्यालयाचे नाव : चिपळूण नगर परिषद, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी
ई-निविदा मागविणारी सूचना क्र. ११४० सन २०२१-२२
चिपळूण नगर परिषदेकडील ई-निविदा सूचना क्रमांक ११४० सन २०२०-२१ अन्वये जिल्हा स्तर नगराला सन २०२०-२१ अंतर्गत रस्ते डॉबरीकरण व आर.सी.सी. गटाराचे बांधकाम करणे कामाकरिता ब-१ नमुन्यातील ई-निविदा प्रणालीद्वारे ई-निविदा मागविण्यात येत आहे. सदर निविदाबाबतचा सविस्तर तपशील, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाचे <https://www.mahatenders.gov.in/> या संकेतस्थळावर दिनांक ०२.०४.२०२१ रोजीपासून पाहावयास उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख दिनांक १६.०४.२०२१ रोजीपर्यंत सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत राहिल. दिनांक : ०१.०४.२०२१
स्वाक्षरी/-
मुखाधिकारी
चिपळूण नगर परिषद
स्वाक्षरी/-
अध्यक्ष
चिपळूण नगर परिषद

सोमा टेक्स्टाइल्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सोआयएन : एल५१९९९डब्ल्यूबी१९४०पीएलसी०१००००
नोंदणीकृत कार्यालय : २, रेड क्रॉस प्लेस, कोलकाता- ७००००९, पश्चिम बंगाल
टेलि. : ०३३-२४४७००६ ई-मेल आयडी : investors@somatextiles.com
वेबसाइट : www.somatextiles.com

सेबी (डिलिस्टिंग) ऑफ इन्व्हेस्टी शेअर्स रेग्युलेशन, २००९ च्या रेग्युलेशन ६(ए) व ७ अनुसार ऐच्छिक डिलिस्टिंगकरिता जाहीर सूचना
रेग्युलेशन ६(ए) व रेग्युलेशन ७, वेळेवेळी सुधारित केल्यास, यानुसार याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या संचालक मंडळद्वारा ३० मार्च, २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या त्यांच्या सभेत सौरभसेई लिमिटेडकडील कंपनीच्या समन्वय भागांचे ऐच्छिक डिलिस्टिंगबाबत प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. कंपनी सौरभसेई लिमिटेडकडील तिच्या समन्वय भागांच्या ऐच्छिक डिलिस्टिंगकरिता अजि प्रक्रिया करीत आहे.
डिलिस्टिंगची आवश्यकता आणि आक्षेप :
येथे सौरभसेई लिमिटेडवरील समन्वय भागांचा नाण्य व्यापार दिवून येतो. तथापी, कंपनीच्या भागांचा नियमितपणे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे (एनएसई) व्यापार होत असतो. याअधिक, सौरभसेई लिमिटेडकडील डिलिस्टिंगबाबत आक्षेप म्हणजे सौरभसेई लिमिटेडला देय असणाऱ्या लिस्टिंग शुल्कावरील आवृत्ती खर्च बचत करणे होय, येथे कंपनीचे समन्वय भाग दुर्लक्षित जातात आणि वेळेवेळी येणाऱ्या सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वयरीमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५चे विविध रेग्युलेशन्सचे एकाधिक अनुपालन यामुळे होणारे अनावश्यक विचाराय व प्रशासकीय ओझे टाळणे आणि राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज टर्मिनलद्वारा गुंतवणूकदारांना उच्च सेवांची तरतूद करून देणे आहे. कंपनी राष्ट्रव्यापी टर्मिनल असलेल्या एनएसईवर सूचिवद्ध असल्यामुळे, गुंतवणूकदारांना देशभरातून कंपनीच्या भागांबाबत व्यापार व व्यवहार करणे सोयीस्कर होणार आहे. कंपनीचे समन्वय भाग नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडवर सूचिवद्ध करणे चालू राहणार आहे.
सोमा टेक्स्टाइल्स अॅण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता स्वाक्षरी:-
(ए.के. मिश्रा)
कंपनी सचिव
स्थळ : कोलकाता
तारीख : ०१.०४.२०२१
संरक्षक क्र. : एसएस१७३६०

जाहीर संक्षिप्त ई-निविदा सूचना क्रमांक ५६ सन २०२०-२१ (NIT)
महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग
इवद (बांधकाम) विभाग जिल्हा परिषद, सांगली
सांगली जिल्हा परिषद, सांगली कडील योग्य त्या कार्यालय नोंदणीकृत कंत्राटदाराकडून दोन लिफाके पध्दतीने खालील कामाच्या ई-निविदा मागविली आहे. ई-निविदा <http://www.mahatenders.gov.in> या संकेत स्थळावर सर्व कामे दिनांक 31/03/2021 रोजी त्परी 18.55 वाजेपर्यंत पासून दिनांक 07/04/2021 रोजी सुद्धा 19.00 वाजेपर्यंत ई-निविदा पध्दतीने देण्यात व स्विकारण्यात येतील.
क्र. क्र. कामाचे नाव अंदाजित रक्कम रुपये
१) मीजे जाडर बोवडाल, ता.जत प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुख्य इमारत बांधकाम करणे. ३,१०,३५,६९९/-
कार्याकारी अधिष्ठाता (इ व द) जिल्हा परिषद, सांगली

मुंबई आणि पुरी/हावडा दरम्यान अतिरिक्त विशेष गाड्या

लोकमान्य टिळक टर्मिनस-पुरी सुपरफास्ट साप्ताहिक विशेष ट्रेन नं. स्थान आगमन

ट्रेन नं.	स्थान	आगमन
०२१४५ (विशेष)	लोकमान्य टिळक टर्मिनस पुढील सल्ला मिळेपर्यंत ११.०४.२०२१चा प्रभावापासून प्रत्येक रविवारी २०.३५ वा.	पुरी ०६.५५ वा. तिसऱ्या दिवशी
०२१४६ (विशेष)	पुरी पुढील सल्ला मिळेपर्यंत १३.०४.२०२१चा प्रभावापासून प्रत्येक मंगळवारी २१.४५ वा.	लोकमान्य टिळक टर्मिनस ०७.२५ वा. तिसऱ्या दिवशी

थांबे : कल्याण, नाशिक रोड, भुसावळ, अकोला, बडनेरा, नागपूर, गोंदिया, दूर्ग, रायपूर, महासमूद, खारियार रोड, कांताबांजी, तितलगाड, बालनगौर, बर्गाह रोड, सांबलपूर, अंगूल, ताल्चेर, डेनकनाल, कट्टक, भुवनेश्वर व खुर्दा रोड.

लोकमान्य टिळक टर्मिनस-हावडा सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक विशेष ट्रेन नं. स्थान आगमन

ट्रेन नं.	स्थान	आगमन
०१०५१ (विशेष)	लोकमान्य टिळक टर्मिनस पुढील सल्ला मिळेपर्यंत	